●वर्ष : 16 ●अंक : 243 ●मूल्य : 02 रूपया मात्र पृष्ठ : 08 RNI No. DELHIN/2008/23928

दैनिक लोकतंत्र की शान

लोकतंत्र का स्तंभ

दिल्ली से प्रकाशित

गुरुवार 26 दिसम्बर 2024

Mfg & mkt by.. ANGEN PHARMACEUTICALS (OPC) PRIVATE LIMITED

Distributorship ke liye contact Karen .
(9315755133 / ya email Karen)
angenpharmaceuticals@gmail.com

समाचार

भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस मुख्यालय का दौरा किया

नूना न्यूज एजेंसी।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने क्रिसमस के अवसर पर यहां कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया (सीबीसीआई) मुख्यालय और सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च का दौरा किया। नड्डा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी पोस्ट में कहा, जैसा कि हम ईसा मसीह के जन्म का जश्न मनाते हैं, आइए हम देने की भावना, शांति की खोज, आशा की शक्ति और एक राष्ट्र के रूप में हम कैसे प्रेम, करुणा और सद्भाव के मूल्यों को अपना सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, इसका भी जश्न मनाएं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वह सभी देशवासियों की खुशी और कल्याण की प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कहा, हमारा राष्ट्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र से निर्देशित होकर विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे और सभी भारतीयों के योगदान से विकसित भारत 2047 के अपने लक्ष्य तक पहुंचे। आप सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं! प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी सोमवार को सीबीसीआई का दौरा किया था।

भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहा संदिग्ध मारा गयाः पुलिस

नूना न्यूज एजेंसी।

गंगानगर। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने गंगानगर जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा पर भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे एक संदिग्ध को मार गिराया। अधिकारियों ने बताया कि घटना मंगलवार देर रात की है। गंगानगर के जिला पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने बताया कि यह घटना केसरीसिंहपुर इलाके के एक गांव के पास हुई जब एक संदिग्ध व्यक्ति ने पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि संदिग्ध भारतीय सीमा में लगे खंभे की तरफ आने की कोशिश कर रहा था। बीएसएफ के जवानों ने उसे चेतावनी दी। जब वह नहीं रुका तो जवानों ने गोली चला दी। इसमें उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि संदिग्ध के पास पाकिस्तानी मुद्रा, सिगरेट का पैकेट और कुछ अन्य सामान मिला है। उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

पीएम मोदी ने किया केन-बेतवा परियोजना का शिलान्यास

नूना न्यूज एजेंसी।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारत-रत्न से सम्मानित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर मध्यप्रदेश के खजुराहो में देश की पहली महत्वाकांक्षी और बहुउद्देशीय केन-बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना का शिलान्यास किया।

पीएम मोदी ने कहा कि बीता दशक,भारत के इतिहास में जल-सुरक्षा और जल संरक्षण के अभूतपूर्व दशक के रूप में याद किया जाएगा।

केन-बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना से बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने वाली है। आज मध्य प्रदेश के खजुराहो में कई विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम का हिस्सा बनकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

जब देश में अटल जी की सरकार बनी, तब उन्होंने पानी से जुड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए गंभीरता से काम शुरू किया था। लेकिन 2004 में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस ने अटल जी के सभी प्रयासों को ठंडे बस्ते में डाल दिया।

>> 1980 में केन और बेतबा नदी को जोड़ने का आया था प्रस्ताव

केन-बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के जरिए देश में पहली रिवर लिंकिंग परियोजना शुरू हुई है. अस्सी के दशक में इस परियोजना का प्रस्ताव सामने आया था, जिस पर अब अमल होने जा रहा है. इसके तहत केन नदी के अतिरिक्त पानी को बेतवा नदी तक ले जाने के लिए एक नहर बनाई जाएगी. केन नदी के किनारे पहले एक बांध बनाया जाएगा, जिसका नाम है दौधन बांध. इस बांध में केन नदी का पानी स्टोर कर उसे नहर के जरिए बेतवा नदी तक पहुंचाया जाएगा. केन नदी देश की सबसे साफ सुथरी नदियों में से एक है, जो मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले से शुरू होती है और विंध्य की पहाड़ियों के पठारी इलाके से होते हुए आगे जाकर उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले के चिल्ला इलाके में यमुना नदी में मिल जाती है।

>>> इस परियोजना की क्या है विशेषता

देश की पहली नदी जोड़ो योजना होगी ये नहर.केन्द्र, मध्यप्रदेश और यूपी सरकार के सहयोग से पूरा होगी.इस परियोजना की लागत- 44 हजार 605 करोड़ रुपए.90% खर्च केन्द्र सरकार और 10 % खर्च राज्यों का होगा।103 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन, हजारों को रोजगार.27 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का भी है लक्ष्य।

>>> करोड़ों लोगों को होगा इसका लाभ

जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक केन-बेतवा परियोजना से सालाना 10.62 लाख हेक्टेयर इलाके को सिंचाई की सुविधा मिलेगी. 62 लाख लोगों को पीने का साफ पानी मिलेगा। इसके अलावा 103 मेगावॉट हाइड्रोपावर और 27 मेगावॉट सोलर पावर इससे पैदा करने की योजना है। इस प्रोजेक्ट पर 44,605 करोड़ रुपये लागत आने की संभावना है।

ज्वलंत मुद्दा सम्पादकीय

राष्ट्र निर्माण के अटल आदर्श की शताब्दी

मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं...लौटकर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं? अटल जी के ये शब्द कितने साहसी हैं...कितने गूढ़ हैं। अटल जी, कूच से नहीं डरे...उन जैसे व्यक्तित्व को किसी से डर लगता भी नहीं था। वो ये भी कहते थे... जीवन बंजारों का डेरा आज यहां, कल कहां कूच है..कौन जानता किधर सवेरा...आज अगर वो हमारे बीच होते, तो वो अपने जन्मदिन पर नया सवेरा देख रहे होते। मैं वो दिन नहीं भूलता जब उन्होंने मुझे पास बुलाकर अंकवार में भर लिया था...और जोर से पीठ में धौल जमा दी थी। वो स्नेह...वो अपनत्व...वो प्रेम...मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। आज 25 दिसंबर का ये दिन भारतीय राजनीति और भारतीय जनमानस के लिए एक तरह से सुशासन का अटल दिवस है। आज पूरा देश अपने भारत रत्न अटल को, उस आदर्श विभूति के रूप में याद कर रहा है, जिन्होंने अपनी सौम्यता, सहजता और सहृदयता से करोड़ों भारतीयों के मन में जगह बनाई। पूरा देश उनके योगदान के प्रति कृतज्ञ है। उनकी राजनीति के प्रति कृतार्थ है। 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए उनकी एनडीए सरकार ने जो कदम उठाए, उसने देश को एक नई दिशा, नई गति दी। 1998 के जिस काल में उन्होंने पीएम पद संभाला, उस दौर में पूरा देश राजनीतिक अस्थिरता से घिरा हुआ था। 9 साल में देश ने चार बार लोकसभा के चुनाव देखे थे। लोगों को शंका थी कि ये सरकार भी उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाएगी। ऐसे समय में एक सामान्य परिवार से आने वाले अटल जी ने, देश को स्थिरता और सुशासन का मॉडल दिया। भारत को नव विकास की गारंटी दी। वो ऐसे नेता थे, जिनका प्रभाव भी आज तक अटल है। वो भविष्य के भारत के परिकल्पना पुरुष थे। उनकी सरकार ने देश को आईटी, टेलीकम्यूनिकेशन और दूरसंचार की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ाया। उनके शासन काल में ही, एनडीए ने टेक्नॉलजी को सामान्य मानवी की पहुंच तक लाने का काम शुरू किया। भारत के दूर-दराज के इलाकों को बड़े शहरों से जोड़ने के सफल प्रयास किये गए। वाजपेयी जी की सरकार में शुरू हुई जिस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ने भारत के महानगरों को एक सूत्र में जोड़ा वो आज भी लोगों की स्मृतियों पर अमिट है।

SYED ZAKI HAIDER
(EDITOR / PUBLISHER CUM MANAGING DIRECTOR
OF NAI UMMEED NEWS AGENCY
MOBILE NO. 9911371802
EMAIL SYEDZAKIHAIDER786@GMAIL.COM

फर्जी केस में सीएम आतिशी की गिरफ्तारी की तैयारी

केजरीवाल ने लगाया बड़ा आरोप

नूना न्यूज एजेंसी।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिस को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने इतने सारे काम किए इसलिए हम कह रहे हैं कि हमे ही वोट दो। हम अपने काम पर वोट मांग रहे हैं। वो (बीजेपी) सिर्फ गालियों और काम रोकने पर वोट मांग रहे हैं। हमने महिला सम्मान योजना, जिसके तहत हर महीन महिला को 2100 रुपये देने का ऐलान किया गया और जिसे लेकर दिल्ली की कैबिनेट 1000 रुपये देने को मंजूरी दे चुकी है, का ऐलान किया है। इससे महिलाओं को फायदा होगा।

अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ED, CBI और इनकम टैक्स, तीनों एजेंसियों की मीटिंग हुई है। उसमें ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी को गिरफ्तार किया जाए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं।

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि इसी तरह से बुजुर्गों को संजीवनी योजना का ऐलान किया, इसके तहत बुजुर्गों को सारा इलाज हम करवाएंगे. इन दोनों योजना को लेकर जबरदस्त भीड़ लग रही है. कल तक महिला सम्मान योजना में 12.50 लाख रिजस्ट्रेशन और डेढ़ लाख के करीब बुजुर्गों ने संजीवनी योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराया है. इस चीज से बीजेपी खौफ में है. आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया था. इस नोटिस के जारी होने के बाद संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना पर अब सवाल खड़े हो गए थे।

'केजरीवाल महिला-बुजुर्गों को धोखा दे रहे हैं'

दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन योजनाओं को लेकर नोटिस जारी कर पर बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी. बीजेपी के मीडिया प्रभारी प्रवीण शंकर कपूर ने इस पूरे मामले पर कहा कि केजरीवाल महिला और बुजुर्गों को क्यों धोखा दे रहे हैं. आज ये समय आ गया है कि दिल्ली सरकार के ही स्वास्थ्य और महिला कल्याण विभाग को फजीवाड़े से जुड़ा नोटिस जारी किया। ये लोग आपका पर्सनल डाटा ले रहे हैं, प्लीज उनके साथ ये सब शेयर न करें. दोनों विभागों ने नोटिस जारी किया है, हमारी ऐसी कोई स्कीम नहीं है. अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा कि पंजाब के बाद अब दिल्ली की महिलाओं से धोखा क्यों कर रहे है।

अरविंद केजरीवाल ने 12 दिसंबर को दिल्ली की महिलाओं के लिए दो बड़ी घोषणाएं की थी. दरअसल, अरविंद केजरीवाल ने पहले तो महिला सम्मान योजना की शुरूआत की, जिसके तहत महिलाओं को 1000 रुपये दिए जाएं. इसके तुरंत बाद ही उन्होंने एक अन्य घोषणा करते हुए कहा कि चुनावों के बाद इस योजना के तहत दिए जाली रकम को 2100 रुपये कर दिया जाएगा. अरविंद केजरीवाल ने चुनावों से पहले दिल्ली की महिलाओं के लिए यह बहुत बड़ी घोषणा की है।

अरविंद केजरीवाल ने इस योजना की घोषणा करते हुए कहा था कि हमारे कार्यकर्ता इस योजना के तहत घर-घर रजिस्ट्रेशन कराने आएंगे और तब सभी महिलाएं अपना रजिस्ट्रेशन असानी से करा सकेंगी। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि जल्द ही चुनावों की घोषणा हो जाएगी और इस वजह से रजिस्ट्रेशन कराए जाने के बाद भी पैसे ट्रांसफर नहीं किए जा सकेंगे। हालांकि, चुनाव खत्म होते ही सभी महिलाओं को इस योजना के तहत 2100 रुपये दिए जाएंगे।

>> सीएम आतिशी को गिरफ्तार करने की है तैयारी'

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि हमे जानकारी मिली है कि दिल्ली के सीएम आतिशी को फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। ईडी को कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेताओं के खिलाफ रेड की जाए। उनका मकसद है कि वो हमारी चुनावी तैयारी और हमारे प्रचार को बाधित करें। सूत्रों से पता चला है कि ट्रांसपोर्ट विभाग में फर्जी तरीके से आतिशी जी के खिलाफ केस तैयार किया जा रहा है। वो लो महिलाओं को मिलने वाली फ्री यात्रा को रोकना चाहते हैं। हमे भरोसा है कि दिल्ली की जनता इसका जवाब देगी। हम लगता है कि उन्हें अपने काम को ब्योरा देना चाहिए। सिर्फ हमे रोकने से दिल्ली की जनता को लेकर हमारे काम का नुकसान नहीं होगा।

>> दिल्ली की जनता जवाब जरूर देगी

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी हमने आज तक ईमानदारी से काम किया है हम आगे भी ईमानदारी से ही काम करेंगे। इनकी एजेंसियां अगर मुझपर झूठा केस करती है मुझे गिरफ्तार करती है तो मुझे इस देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा है कि चाहे कुछ हो जाए जीत हमेशा सच्चाई की ही होगी. इनके झूठे केस लगाने के बाद भी हमें जल्दी बेल मिलेगी। ये मुझे भरोसा है। आतिशी ने कहा कि आग दिल्ली वालों की सुविधाएं रोकना चाहते हैं, दिल्ली की जनता सब देख रही है. दिल्ली की जनता को पता है कि एक तरफ केजरीवाल हैं तो जो उनके लिए इतना काम कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है जिसका दो काम है एक तो केजरीवाल को गाली देना और दूसरा दिल्ली की जनता को मिलने वाली सुविधाओं को रोकना।

रईस खान वार्ड नं0- 33 के रहने वाले कर्मठ, मेहनती ईमानदार कार्यकर्ता को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नियुक्त किया।

क्षेत्र के कार्यकताओं की ओर से ठेर सारी बधाई।

रईस खान
वार्ड नं0- 33

निवेदक : आम आदमी पार्टी
मुंडका विधान सभा

पटना में बीपीएससी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी

अभ्यर्थियों ने पुलिस पर लगाया लाठीचार्ज का आरोप

नूना न्यूज एजेंसी।

पटना। 70 वीं बीपीएससी परीक्षा की दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। एक अभ्यर्थी ने कहा कि हम सिर्फ शांतिपूर्वक अपनी मांगें (बीपीएससी के सामने) रखना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने हम पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। हम पिछले 8 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक अन्य अभ्यर्थी ने कहा कि हम बदमाश नहीं हैं लेकिन हमें पीटा गया है। हम बीपीएससी से मांग करते हैं कि वह हमारी मांगों को सुने और उन्हें पूरा करे। छात्र ने कहा कि आज एक अभ्यर्थी ने आत्महत्या कर ली है. इससे हम नाराज हैं, फिर भी हम बीपीएससी गए। हमारी कोई नहीं सुन रहा और पुलिस हमें पीट रही है। बुधवार को, प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर बीपीएससी कार्यालय की ओर मार्च किया, जिसके कारण पुलिस के साथ उनका टकराव हुआ। बढ़ती स्थिति ने अधिकारियों को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। इस बीच, इस घटना से अभ्यर्थियों में आक्रोश फैल गया है, जिनमें से कई ने पुलिस की प्रतिक्रिया की आलोचना की और अपना विरोध जारी रखने की कसम खाई। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आयोग कार्यालय का घेराव करने जुटे बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं पर अपनी शिकायतें व्यक्त करते हुए अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से गर्दनीबाग में धरना दे रहे थे। बीपीएससी के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने इस महीने की शुरूआत में आयोजित 70 वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (सीसीई) 2024 को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जो प्रश्न पत्र लीक के आरोपों में घिर गई थी। हालाँकि, उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि बीपीएससी 13 दिसंबर को बापू परीक्षा परिसर परीक्षा केंद्र में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की पुनः परीक्षा के साथ आगे बढ़ रहा है और खुलासा किया कि पुनः परीक्षा 4 जनवरी, 2025 को आयोजित की जाएगी। बीपीएससी ने हाल ही में पटना के कुम्हरार इलाके में बापू परीक्षा परिसर में आयोजित अपनी सीसीई की प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दी थी, जहां 13 दिसंबर को "अनियंत्रित" उम्मीदवारों द्वारा किए गए हंगामे के बाद ड्यूटी पर तैनात एक अधिकारी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी।

हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल में माता गुजरी जी और साहिबजादों को श्रद्धांजलि अर्पित की

नई दिल्ली दिसंबर : दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधीन चलने वाले 13 गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूलों के छात्रों और स्टाफ ने आज माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों को एक साथ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कालका, जनरल सेक्रेटरी सरदार जगदीप सिंह काहलों और धर्म प्रचार के मुखी सरदार जसप्रीत सिंह कर्मसर ने बताया कि यह कार्यक्रम सभी स्कूलों में सुबह 11:00 बजे एक साथ आयोजित किया गया, जिसकी जिम्मेदारी कमेटी के सदस्य सरदार परविंदर सिंह लक्की को दी गई थी।

उन्होंने बताया कि सभी स्कूलों के छात्रों और स्टाफ ने एक साथ वाटा लम्मियां ते रस्ता पहाड़ दा गीत गाया। उनका कहना था कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को साहिबजादों की शहादत के ऐतिहासिक महत्व से अवगत कराना और उनमें प्रेरणा, उत्साह, साहस, हिम्मत, और बहादुरी की भावना उत्पन्न करना था। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम बहुत ही सफल साबित हुआ और दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी और गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूलों के इतिहास में पहली बार हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम जारी रखे जाएंगे।

मरकजी तालीमी बोर्ड ने वंचित छात्रों पर प्रभावित करने वाले आरटीई संशोधन पर पुनर्विचार का आग्रह किया

नई दिल्ली, 25 दिसंबर। भारत सरकार ने हाल ही में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम में संशोधन लाया है जिसके तहत कक्षा 5 और 8 में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। मरकजी तालीमी बोर्ड ने इस संशोधन पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसका उपेक्षित समुदायों के छात्रों, विशेषकर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के मरकजी तालीमी बोर्ड के सचिव सैयद तनवीर अहमद ने कहा कि इस नीति के नकारात्मक प्रभाव होंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के दंडात्मक उपाय लागू करने के बजाय सरकार को स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। कक्षाओं को सक्रिय शिक्षार्थियों की कक्षाओं में बदलने के लिए सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षकों को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। इस प्रशिक्षण में आनन्दपूर्ण शिक्षा की अवधारणा को क्रियान्वित करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए, जिससे छात्रों के शैक्षिक अनुभव और परिणामों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए बाल-केंद्रित शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह अपनाया जाना चाहिए। यह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) प्रणाली के क्रियान्वयन से प्राप्त किया जा सकता है, जो केवल रटने के बजाय छात्रों की समग्र प्रगति पर ध्यान केंद्रित करता है। मूल्यांकन प्रणाली में सीखने की क्षमताओं और व्यावहारिक जीवन कौशल पर जोर दिया जाना चाहिए। इस संशोधन से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिनमें से अधिकांश वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं। इन स्कूलों में अक्सर अतिरिक्त ट्यूशन और सहायता सेवाओं का अभाव होता है, जिससे ऐसे छात्रों को और अधिक नुकसान होगा तथा असमानताएं बढ़ेंगी। इस नीति के कारण स्कूल छोड़ने वालों की दर में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि असफल होने वाले छात्रों को सामाजिक कलंक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनकी शैक्षणिक और व्यक्तिगत वृद्धि में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

देश की सुरक्षा और शांति बनाए रखने में सीआरपीएफ की अहम भूमिका : शाह।

डॉ. समरेंद्र पाठक/वरिष्ठ पत्रकार।

नई दिल्ली, 25 दिसंबर 2024 (एजेंसी)। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है,कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीआरपीएफ देश में आंतरिक सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा रही है। श्री शाह ने यह बात यहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) मुख्यालय का दौरा करने के दौरान कही। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, गृह मंत्री ने बल के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और सीआरपीएफ के संचालन और प्रशासनिक दक्षता की व्यापक समीक्षा की। इस



अवसर पर केंद्रीय गृह सचिव सहित गृह मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद थे। बैठक के दौरान सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह ने गृह मंत्री को सीआरपीएफ में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति सहित बल के शहीद जवानों के परिवारों के लिए लागू की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया। श्री शाह ने कहा कि सीआरपीएफ ने नक्सलवाद से निपटने तथा पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर में शांति और स्थिरता बहाल करने में सराहनीय काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री का यह दौरा राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सीआरपीएफ की प्रतिबद्धता तथा राष्ट्र के प्रति इसके बहुमुखी योगदान के प्रति सरकार की मान्यता को रेखांकित करता है। एल.एस.

अरविंद केजरीवाल अब चुनावी जुमले ही नहीं बोल रहे बल्कि संजीवनी और महिला सम्मान के नाम पर चुनावी छलावा कर रहे हैं : बांसुरी स्वराज

नई दिल्ली दिसंबर : दिल्ली भाजपा की मंत्री और नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के दो प्रमुख झूठ महिला सम्मान एवं संजीवनी योजना के साथ ही उनके रोहिंग्या एवं बंग्लादेशीयों को समर्थन की निंदा की और दिल्ली भाजपा द्वारा अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ निकाले गए आरोप पत्र पर केजरीवाल का जवाब मांगा। बांसुरी स्वराज ने कहा कि अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली भर में सिर्फ चुनावी जुमले नहीं बोर रहे बल्कि चुनावी छलावा कर रहे हैं।

आज हम माननीय उपराज्यपाल के पास बैठक करके आए हैं जहां स्वास्थ्य सचिव ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि संजीवनी जैसी कोई भी योजना दिल्ली में है ही नहीं। कुछ ऐसा ही महिला सम्मान के नाम पर भी अरविंद केजरीवाल छलावा कर रहे हैं। संजीवनी और महिला सम्मान के नाम पर केजरीवाल और उनकी पूरी टीम बुजुर्गों और महिलाओं के नंबर और निजी जानकारी इकट्ठा कर रही है इसलिए दिल्लीवालों को सावधान रहने की जरूरत है और अब केजरीवाल के किसी भी झांसे में आने की जरूरत नहीं है। स्वराज ने दिल्लीवालों से निवेदन करते हुए कहा कि अपना पर्सनल डेटा किसी के साथ भी साझा ना करें। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं हैं जिनको ₹आप₹ सरकार दिल्ली में अपने राजनीतिक द्वेष से लागू नहीं कर रही है और साथ ही कई योजनाओं में रुकावटे भी डालने में पीछे नहीं हटी है।

महिला एवं बाल मंत्रालय 26 दिसंबर मनाएगा को वीर बाल दिवस

नई दिल्ली, दिसंबर : महिला एवं बाल मंत्रालय 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। भारत सरकार असाधारण उपलब्धियों के लिए सात श्रेणियों कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण में बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (पीएमआरबीपी) प्रदान करती है। इस बार 14 राज्यों के 17 बच्चों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनमें 7 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 26 दिसंबर को इन बच्चों को पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रत्येक विजेता को पदक, प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र पुस्तिका दिए जाएंगे।

केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति पर देवेन्द्र यादव का हमला

दिल्ली की जनता ने भाजपा-आप के कुशासन को नकारा, 2025 में कांग्रेस को सत्ता में लाने की तैयारी

नई दिल्ली दिसंबर : दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द यादव ने कहा कि अरविन्द केजरीवाल को रामलीला मैदान में बैठाकर उनको दिल्ली की सत्ता पर काबिज करवाने वाली भाजपा, कांग्रेस पार्टी की तुलना भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी से करने से पहले अपने गिरेबान में झांके। क्योंकि दिल्ली ही नही पूरा देश जानता है कि केजरीवाल के झूठे आंदोलन के पीछे भाजपा खड़ी थी। सत्ता हथियाने के लिए भाजपा और आम आदमी पार्टी दिल्ली में कोई कसर नही छोड़ रही है जबकि दिल्ली की जनता इनके भ्रष्टाचार, कुशासन और दिल्ली के विकास की अनदेखी को अच्छी तरह जान चुकी है और फरवरी 2025 के विधानसभा चुनावों में एक मत से कांग्रेस की ओर रुख करने का बना चुकी है।

देवेन्द्र यादव ने कहा कि देश की सरकारी संस्थाओं को पूंजीपति हाथों में सौंपकर देश में बेरोजगारी और महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ने वाली भाजपा कांग्रेस के कॉमन वैल्थ घोटाला की बात करती है। जबकि निगम में रहते हुए दिल्ली के हर कौने में शराब के ठेके खोलने और अरविन्द केजरीवाल के साथ शराब घोटाले में बराबर के राजदार रहे है।

देवेन्द्र यादव ने कहा कि कांग्रेस की दिल्ली सरकार के 15 वर्षों के शासन में कोई मंत्री, अधिकारी किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध नही हो सके और ही किसी मंत्री को जेल हुई जबकि अरविन्द केजरीवाल सहित उनका लगभग पूरा मंत्रीमंडल गैर कानूनी लेन-देन और आबकारी नीति को लागू करने में हुई अनियमितताओं के कारण भारी घोटाले किए और शीश महल में 175 करोड़ की बबार्दी दिल्ली की जनता के समाने है। उन्होंने कहा कि टुकड़े-टुकड़े गैंग पर आधारित केन्द्र में भाजपा सरकार पहले अपनी स्थिति और परिस्थिति देखे जिसने 400 पार का नारा दिया था जबकि दूसरे दलों के सहारे केन्द्र में सरकार बनाकर एक टांग पर खड़ी है।

ग्रामीण विकास के लिए उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश को मिला अनुदान

नई दिल्ली दिसंबर : केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान उत्तर प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान के रूप में 1598.80 करोड़ रुपये के असंबद्ध अनुदान की दूसरी किस?त जारी की है। ये धनराशि राज्य की सभी पात्र 75 जिला पंचायतों, सभी पात्र 826 ब्लॉक पंचायतों और सभी पात्र 57691 ग्राम पंचायतों के लिए जारी की गई है जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आंध्र प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान के रूप में वित?तीय वर्ष 2024-25 के असंबद्ध अनुदान की दूसरी किस्त 420.9989 करोड़ रुपये के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए असंबद्ध अनुदान की पहली किस्त की धनराशि 25.4898 करोड़ रुपये भी जारी की गई है। ये धनराशि राज्य की 13097 विधिवत निर्वाचित ग्राम पंचायतों, 650 विधिवत निर्वाचित ब्लॉक पंचायतों और सभी 13 पात्र जिला पंचायतों के लिए आवंटित की गई है। भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए राज्यों को पंद्रहवें वित्त अनुदान जारी करने की सिफारिश करती है, जिसे बाद में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आवंटित अनुदान को वित्तीय वर्ष में 2 किस्तों में जारी किया जाता है। संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित 29 विषयों के अंतर्गत, वेतन और अन्य स्थापना लागतों को छोड़कर, पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) द्वारा स्थल-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए असंबद्ध अनुदान का उपयोग किया जाएगा।

जश्न-ए-रंग ने पेश की उद्योग जगत के लिए नई संभावनाएं

नई दिल्ली दिसंबर : सिरका इंडिया ने अपने वार्षिक कार्यक्रम जश्न-ए-रंग के चौथे संस्करण में ओइकोस की नई प्रीमियम वॉल पेंट्स रेंज लॉन्च की। यह इवेंट न केवल रंगों का उत्सव था, बल्कि नवाचार और स्थिरता के प्रति सिरका इंडिया की प्रतिबद्धता का प्रमाण भी था। कार्यक्रम में बॉलीवुड सितारे सारा अली खान और नुसरत भरुचा के साथ पंजाबी पॉप सिंगर्स अशोक मस्ती, जस्सी गिल और बब्बल राय ने चार चांद लगाए।

ओइकोस, जो पर्यावरण-अनुकूल समाधानों के लिए जाना जाता है, ने इस नई रेंज में टिकाऊपन, वॉशेबिलिटी, और बेहतरीन कवरेज जैसी विशेषताएं शामिल की हैं। इस मौके पर सिरका इंडिया के चेयरमैन संजय अग्रवाल और ओइकोस इटली के निदेशक अलेसांद्रो बैलेस्ट्रि समेत कई प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में बॉलीवुड सितारों की शानदार परफॉर्मेंस और उद्योग जगत के विशेषज्ञों की भागीदारी ने इसे खास बना दिया। सिरका इंडिया के जॉइंट एमडी अपूर्व अग्रवाल ने कहा, हम नवाचार और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को प्राथमिकता देते हुए प्रीमियम उत्पाद पेश करने के लिए उत्साहित हैं।

राष्ट्रीय विज्ञान नाट्य महोत्सव 27 और 28 दिसंबर को आयोजित होगा

नई दिल्ली दिसंबर : नई दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में 27 और 28 दिसंबर को राष्ट्रीय विज्ञान नाट्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद का एक प्रमुख आयोजन है। इस महोत्सव में देशभर के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर चयनित 40,000 से अधिक छात्र भाग लेते हैं। ये छात्र अपने रचनात्मक नाटकों के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण और चिकित्सा क्षेत्र में नई खोजों जैसे विषयों पर प्रस्तुति देंगे।

कार्यक्रम का उद्घाटन 27 दिसंबर को सुबह 9 बजे प्रो. अशोक चक्रधर (पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त कवि और लेखक) करेंगे। उनके साथ विशेष अतिथि के रूप में दिल्ली सरकार की शिक्षा निदेशक श्रीमती वेदिता रेड्डी (आई.ए.एस.) उपस्थित रहेंगी। समापन समारोह 28 दिसंबर को सुबह 11 बजे आयोजित होगा। मुख्य अतिथि के रूप में श्री रॉबिन कुमार दास (राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त रंगमंच निर्देशक और पूर्व प्रोफेसर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा) और विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ. सुचित्रा गुप्ता (प्रसिद्ध रंगमंच कलाकार और वॉयस ओवर आर्टिस्ट) उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विज्ञान को रचनात्मक और मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत कर छात्रों और समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है।

अकेले रह रहे वृद्ध की तेजधार हथियार से हत्या

उचाना दिसम्बर : गांव पालवां में सोमवार रात को एक वृद्ध की तेजधार हथियार से वार कर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने पर उचाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम की सहायता से साक्ष्यों को जुटाया। मृतक बुजुर्ग व्यक्ति अविवाहित था। उचाना थाना पुलिस ने मृतक के भाई के दामाद की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गांव पालवां निवासी ओमप्रकाश (65) अविवाहित था और अपने छोटे भाई के बगल में अपने मकान में अकेला रहता था। बीती देर शाम को किसी व्यक्ति ने तेजधार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। घटना की सूचना पाकर उचाना थाना पुलिस फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गई और हालातों का जायजा लिया। मृतक के छोटे भाई जयभगवान के दामाद गांव कुराड कलायत कैथल निवासी सुभाष ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके ताऊ ससुर ओमप्रकाश के पड़ोसी से हत्या की सूचना मिली थी। जब वह मौके पर पहुंचा तो ओमप्रकाश खून से लथपथ फर्श पर पड़ा हुआ था। उचाना थाना पुलिस ने सुभाष की शिकायत अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक ओमप्रकाश की हत्यारे के साथ हाथापाई हुई थी, उसने हत्यारे बचने का प्रयास भी किया था। बचाव के दौरान वहां रखी कुर्सी भी टूट गई। चार पाई के नीचे रखा तसला पलटा हुआ था। घटना स्थल पर बिखरे साक्ष्य इस तरफ इशारा कर रहे थे कि वारदात को अंजाम किसी नजदीकी व्यक्ति ने दिया है।

घटनास्थल पर मृत पड़ा वृद्ध।

डंपर की टक्कर से बाइक सवार की मौत

ओमपाहवा, यमुनानगर दिसंबर : तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। डंपर सहित चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची व शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजन को सौंप दिया। पुलिस ने डंपर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान नीरज कुमार (24) निवासी औरंगाबाद के रूप में हुई। नीरज की शादी पांच महीने पहले हुई थी।

भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस मुख्यालय का दौरा किया

दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने क्रिसमस के अवसर पर यहां कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया (सीबीसीआई) मुख्यालय और सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च का दौरा किया नड्डा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी पोस्ट में कहा, जैसा कि हम ईसा मसीह के जन्म का जश्न मनाते हैं, आइए हम देने की भावना, शांति की खोज, आशा की शक्ति और एक राष्ट्र के रूप में हम कैसे प्रेम, करुणा और सद्भाव के मूल्यों को अपना सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, इसका भी जश्न मनाएं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वह सभी देशवासियों की खुशी और कल्याण की प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कहा, हमारा राष्ट्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र से निर्देशित होकर विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे और सभी भारतीयों के योगदान से विकसित भारत 2047 के अपने लक्ष्य तक पहुंचे। आप सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं! प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी सोमवार को सीबीसीआई का दौरा किया था।

संसद के पास एक शख्स ने खुद को लगाई आग, अस्पताल ले जाया गया

दिल्ली। बुधवार को संसद भवन के पास एक शख्स ने खुद को आग लगा ली। अज्ञात व्यक्ति गंभीर रूप से जल गया और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पुलिस अधिकारियों को घटनास्थल पर पेट्रोल मिला और आगे की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक एक शख्स ने संसद के पास खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। उन्हें आरएमएल अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस को घटना स्थल से दो पेज का सुसाइड नोट भी मिला है। बाद में दिल्ली पुलिस ने बताया कि आज उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले शायद एक व्यक्ति जीतेन्द्र ने रेल भवन चौराहे पर खुद को आग लगा ली। स्थानीय पुलिस और रेलवे पुलिस ने कुछ नागरिक व्यक्तियों के साथ मिलकर तुरंत आग बुझाई और व्यक्ति को अस्पताल भेजा गया। जैसा कि हम समझ सकते हैं मामला संभवतः बागपत में संबंधित और व्यक्तिगत दुश्मनी का है। आगे की जांच जारी है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस और फोरेंसिक टीम के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और जांच शुरू कर दी गई है।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सुशासन कार्यशाला को किया संबोधित

नई दिल्ली दिसंबर : केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने सुशासन कार्यप्रणालियों पर राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शासन को नया स्वरूप देने वाली परिवर्तनकारी गतिविधियों का उल्लेख किया।

सुशासन सप्ताह के उद्घाटन समारोह में डॉ. जितेंद्र सिंह ने इन सुधारों के मुख्य चालक के रूप में सरकार के समग्र दृष्टिकोण की सराहना की। 19 से 25 दिसंबर तक चलने वाला यह सप्ताह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के साथ जुड़ा हुआ है, जिन्हें शासन में उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने सरकारी विभागों और मंत्रालयों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों की प्रशंसा की, जिससे प्रशासनिक दक्षता एवं सामाजिक कल्याण दोनों में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार के समग्र दृष्टिकोण ने शासन सुधारों को लागू करने के प्रयासों को सुसंगत बनाया है, जो कुशल, समावेशी और प्रभावशाली हैं। उनके संबोधन का एक महत्वपूर्ण पहलू अपशिष्ट प्रबंधन में नवाचारों और स्वच्छता को प्राथमिकता देने पर केंद्रित था, जो आर्थिक व पर्यावरणीय स्थिरता के प्रतिमान के रूप में विकसित हुए हैं।

पवन राठी ने अरविंद केजरीवाल से महिला सम्मान योजना पर सवाल उठाए

पवन राठी ने दिल्ली की महिलाओं को चुनावी वादों के तहत गुमराह करने का आरोप लगाया

नई दिल्ली दिसंबर : पूर्व निगम पार्षद पवन राठी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से महिला सम्मान योजना के तहत पीला कार्ड जारी करने को लेकर सवाल उठाए हैं। राठी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की महिलाओं को चुनावी फायदे के लिए गुमराह कर रही है। उन्होंने केजरीवाल से पूछा कि अगर उनकी पार्टी सच में महिलाओं के कल्याण के लिए काम कर रही है, तो योजना को ठोस सरकारी दस्तावेज में क्यों नहीं लिखा गया?

राठी ने पार्टी के खिलाफ कुछ घटनाओं का हवाला भी दिया, जैसे राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से हाथापाई कराना, दिल्ली सरकार के मंत्री द्वारा न्यूज एंकर के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल और पंजाब में महिला पत्रकार को जेल में डालने की घटनाएँ। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पंजाब चुनाव में केजरीवाल ने 18 साल से ऊपर की महिलाओं को एक हजार रुपए महीना देने का वादा किया था, लेकिन दो साल बाद भी किसी को यह राशि नहीं मिली। इसके अलावा, राठी ने दिल्ली में महिलाओं को 21 सौ रुपए महीना देने के प्रस्ताव पर भी सवाल उठाए, यह कहते हुए कि इसके लिए आवश्यक धनराशि कहाँ से आएगी। उन्होंने गणना की और बताया कि यदि 1 करोड़ महिलाओं को यह राशि दी जाती है, तो कुल खर्च 2.52 लाख करोड़ रुपए होगा, जो कि एक अवास्तविक आंकड़ा है।राठी ने ट्विट करते हुए केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मालेर्ना से स्पष्ट जवाब मांगा है।

समाचार

आस्था ने कराई बेस्ट मटेरियल एवं प्लास्टिक से पॉट बनाने की प्रतियोगिता

लोक तंत्र की शान
प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुर। इनर व्हील क्लब हसनपुर आस्था ने नगर के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में बेस्ट मटेरियल एवं प्लास्टिक से पॉट बनाने का कंपटीशन कराया जिसमें दर्जनों स्कूली छात्राओं ने प्रतिभा किया, बताते चलें कि इनर व्हील क्लब हसनपुर आस्था समय-समय पर विभिन्न प्रकार के आयोजन कराती रहती है इसी क्रम में मंगलवार को इनर व्हील क्लब हसनपुर आस्था ने जीजीआईसी हसनपुर में यह कंपटीशन कराया जिसमें छात्राओं ने प्लास्टिक की बोतल से और बेस्ट मटेरियल से सुंदर-सुंदर पॉट बनाए, बता ते चले कि इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 12 तक की सभी छात्राओं ने भाग लिया जिसमें सभी क्लासों में फर्स्ट एवं सेकंड आने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया गया, इस मौके पर क्लब की अध्यक्षा नीतू अग्रवाल, सचिव पारुल अग्रवाल, एडिटर खुशबू अग्रवाल, जॉइंट सेक्रेटरी रितु अग्रवाल, सीमा, इंदु ,नीता नेहा, डोली, रचना, बबीता आदि मुख्य रूप से मौजूद रही।

बाल शहिद दिवस पर बाल स्वयंसेवकों ने पथ संचलन निकाला

लोक तंत्र की शान
प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुर। बुधवार को नगर में बाल स्वयंसेवको द्वारा पूर्ण गणवेश में पथ संचलन निकाला गया, बताते चलें कि बाल शहिद दिवस के उपलक्ष में यह पथ संचलन निकाला गया, सर्वप्रथम नगर के सरस्वती शिशु मंदिर में एकत्र हुए स्वयंसेवकों ने भारत माता के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित किया उसके बाद भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों के साथ पथ संचलन नगर के सरस्वती शिशु मंदिर से प्रारंभ होकर अंबेडकर चौक, इंदिरा चौक, वंश प्लाजा, प्रथमा बैंक, हिरन वाला, मोहला मनापुर तथा अंबेडकर चौक से पंजाब नेशनल बैंक रोड से होता हुआ जीवनसाथी मंडप के सामने वाली गली से वापस सरस्वती शिशु मंदिर पर जाकर संपन्न हुआ, पथ संचालन का जगह-जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया, पथ संचलन से पूर्व मुख्य वक्ता नगर संचालक दीपक जी ने वीर शहीद फतेह सिंह और जोरावर सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला तथा सभी बाल स्वयंसेवकों से उनके पद चिन्हों पर चलने का आवाहन किया, तथा पथ संचलन के समापन पर विभाग बौद्धिक प्रमुख कृष्ण कुमार ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें देश और समाज के लिए कार्य करने चाहिए इस मौके पर मुख्य रूप से सह संचालक रविंद्र, नगर कार्यवाहक सोनू, सह नगर कार्यवाहक उधम सिंह, कपिल, रजनीकांत, अश्वनी, अभिरभ, भूदेव, अर्पित, विदित एवं कुलदीप मुनि आदि सहित भारी संख्या में बाल स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में मौजूद रहे।

ब्राह्मण महासभा द्वारा पंडित मदन मोहन मालवीय एवं अटल जी की जयंती पर हवन का आयोजन किया गया

लोक तंत्र की शान
प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुर। बुधवार को नगर की बृजलाल पुरोहित ब्राह्मण धर्मशाला में देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई जी एवं पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पर हवन किया गया, तथा हवन के उपरांत प्रसाद का भी वितरण हुआ, इस संबंध में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा हसनपुर के अध्यक्ष पंडित विनय शर्मा ने बताया कि यह हवन महापुरुषों की याद में तथा देश में सुख शांति बनाए रखने तथा सांप्रदायिक तत्वों को दूर रखने तथा सनातन धर्म की रक्षा हेतु तथा ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए आयोजित किया गया है, इस मौके पर मुख्य रूप से महासभा के अध्यक्ष पंडित विनय शर्मा, कोषाध्यक्ष पंडित विशाल शर्मा, महामंत्री पंडित विवेक शर्मा, संरक्षक ब्रजकिशोर शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित श्री चंद्र शर्मा, पंडित सुरेश शर्मा, पंडित अश्विनी शर्मा, अनुज शर्मा, प्रशांत शर्मा, संजीव शर्मा, अभिषेक त्रिवेदी, अंकित शर्मा, वरुण शर्मा, महावीर शर्मा, कमल शर्मा,सुमित शर्मा, श्लोक शर्मा,अंशु शर्मा,भानु शर्मा, राहुल शर्मा, विनीत पाराशर, शिव अवतार शर्मा, शिव अवतार शर्मा, विजय शर्मा, हिमांशु शर्मा, शुभम शर्मा आदि ब्राह्मण बंधु उपस्थित रहे।

रक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री ने किया पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण

लखनऊ। 25 दिसंबरः रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'भारत रत्न' पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा राजधानी लखनऊ में गोमती किनारे कुड़ियाघाट पर स्थापित की गई है। रक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री ने प्रतिमा के रचनाकार अमरपाल सिंह को सम्मानित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अटल संकल्प की प्रतिज्ञा दिलाई। स्वागत भाषण विधायक नीरज बोरा ने किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, राज्यसभा सांसद डॉ. दिनेश शर्मा, महापौर सुषमा खर्कवाल, राज्यसभा सांसद बृजलाल, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा, लालजी प्रसाद निर्मल, पवन सिंह चौहान, पूर्व मंत्री मोहसिन रजा आदि की मौजूदगी रही।

राजनाथ सिंह की बात सुनते लगने लगे जय श्री राम के नारे - योगी जी ने अच्छे अच्छों की करदी तबीयत दुरुस्त

लोकतंत्र की शान संवाददाता

लखनऊ। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि यूपी में योगी के आने के बाद अच्छे अच्छों की तबीयत दुरुस्त हो गई है, इतना सुनते ही लोग बुलडोजर बाबा की जय ... और योगी योगी ... के नारे लगाने लगे। मुस्कुराते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथ जोड़े तो नारे और तेज हो गए। राजनाथ बोले, 2017 में प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से विकास ही नहीं स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के बड़े काम हुए हैं। पूर्वांचल सहित उत्तर प्रदेश से इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारी पर काबू पाने में बड़ी सफलता मिली है, खुशी जताते हुए यह भी कहा, जब वे (राजनाथ) यूपी के मुख्यमंत्री थे तो इस बीमारी का सटीक उपाय नहीं खोज सके थे मंगलवार को कैंट के दिलकुशा लान में अटल स्वास्थ्य मेला - 5 का शुभारंभ करने के बाद रक्षामंत्री ने कहा, 2017 तक प्रदेश में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज थे, यूपी सरकार 27 मेडिकल कॉलेज बना रही है उनमें 14 बनकर तैयार हो गए हैं और 13 का निर्माण कार्य चल रहा है। वह दिन दूर नहीं जब यूपी के हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा।

वेदांत ग्लोबल स्कूल ढवारसी में कार्निवल फेस्ट 2024 का आयोजन किया गया

लोक तंत्र की शान
प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुर/ढवारसी। प्रगतिशील विद्यालय वेदांत ग्लोबल स्कूल ढवारसी में कार्निवल फेस्ट 2024 का आयोजन किया गया इसका शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक अरुण कुमार त्यागी द्वारा फीता काटकर किया गया। स्कूल कार्निवल फेस्ट में विद्यालय के विभिन्न कक्षाओं के छात्र-छात्राओं द्वारा खाने के भिन्न-भिन्न स्टाल लगाए गए, इनमें गंगा हाउस से खुशी, हरि, वंदना, नेहा, विक्रांत ने पानी पुरी*' परीक्षित प्रियांशु राघव त्यागी में *मुल्तानी चोले चावल नेंसी आशा ने मूंग दाल लकी त्यागी ने खीर सोहेल ने काफी हंसराज लक्ष्य अग्रवाल ने रसगुल्ला तनिष्क कनिष्क ने समोसे व आरुष चहल व अमित ने कोल्ड ड्रिंक तथा मीत चहल ने होल्ड द कप गेम गेम आयोजित कराया यमुना हाउस से वंशिका त्यागी आराध्या गुप्ता ने कुल्हड़ चाय लगन भाटी प्रज्ञा चौहान वंशिका त्यागी ने छोले कुलचे अर्जुन त्यागी अल्पेश देव गर्ग ने पानी पुरी देवांश गोयल उत्सव गोयल ने फ्रूट चार्ट फातिमा चौधरी लक्षण महावीर अरमान प्रिंसी गोयल ने बर्गर आरुषि सैनी श्रद्धा गोयल ने गुलाब जामुन कदम लक्ष्य सार्थक ने शूटिंग द बॉल का गेम का स्टाल लगाए जबकि यह सत्यम आर्य ने बर्स्टिंग द बैलून गेम का स्टाल लगाए कृष्ण हाउस से आराध्या चौहान चौधरी सुहानी चौधरी ने पानी पुरी अनुष्का अवनी गोस्वामी ने मोमोज मानवी शर्मा अंशिका ने आइसक्रीम मुदित अयाज मयंक ने सैंडविच रहम परवीन सुहानी ने रसमलाई शिवानी त्यागी तनिष्का चौधरी ने चनाचार्ट सुभान रचित देवांग प्रशांत ने कोल्ड कॉफी गोविंद गोयल ने बिन बाजार गेम सुफियान मुनीर अहमद ने बादाम शेख यशपाल अनस ने पॉपकॉर्न माधव ने ढोकला जबकि यश कुणाल प्रशांत ने ब्रेक द पिरामिड एक्टिविटी कराई कावेरी हाउस से हिमांशु इमरान ने पानी पुरी इमरान अबूजर हिमांशु ने स्प्रिंग रोल दक्ष चौधरी हुजैफा ने पानी की बोतल अब्दुल कुणाल ने आइसक्रीम शौर्य रिदम ने भेलपुरी व ध्रुव गुप्ता ने कोल्ड ड्रिंक गाजर का हलवा यश गोयल लक्ष्य गोयल ने मोमोज पीयूष कार्तिक नव्या ने पाव भाजी तनीषा सिद्धि हुमेरा अख्तर रिंकल सैनी ने छोले भटूरे जबकि मिलन खारी और वंश भाटी ने खोलो अपनी किस्मत के नाम से क्विज कराया। वहीं कार्निवल में आए अतिथियों एवं अभिभावकों ने कार्निवल में बच्चों के द्वारा बनाए गए लजीज व्यंजनों एवं खेलों का आनंद लिया, प्रतियोगिता के समापन पर विद्यालय के प्रधानाचार्य अरुण कुमार शर्मा ने सभी छात्र-छात्राओं एवं आये अभिभावकों एवं अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया और बताया कि इस तरह की गतिविधियां बच्चों में सामाजिकता एवं बाजार से संबंधित जानकारियां प्रदान करती हैं विद्यालय में बच्चों को एकेडमिक्स के अलावा खेल एवं सर्वांगीण विकास हेतु खेल एवं इस प्रकार की गतिविधियां समय-समय पर कराई जाती रहती है। इस कार्निवल में मुख्य रूप से थाना आदमपुर के थाना अध्यक्ष अशोक रामपाल सिंह राणा, ढवारसी चौकी इंचार्ज राजेंद्र कुमार, विद्यालय के प्रबंधक अरुण कुमार त्यागी एवं छात्र-छात्राओं के अभिभावकों एवं ढवारसी के सम्मानित लोग तथा विद्यालय का समस्त मौजूद रहा।

क्रिसमस-डे पर सेंट जॉन्स चर्च में प्रार्थना सभा का हुआ आयोजन, देर रात तक हुए कार्यक्रम

लोक तंत्र की शान
प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुर। बुधवार को क्रिसमस डे पर नगर के मोहल्ला हिरन वाला में स्थित सेंट जॉन्स चर्च में प्रार्थना सभा सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, प्रभु यीशु के जन्म पर ईसाई समाज के लोगों ने केक काटा, बता ते चले कि हसनपुर नगर के मौहल्ला होली वाला में स्थित सेंट जॉन्स चर्च में क्रिसमस डे पर सर्वप्रथम प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, चर्च में श्रद्धालुओं ने कैंडल जलाकर प्रभु यीशु के समक्ष अपनी श्रद्धा व्यक्त की और मन्नत मांगी। इस दौरान बच्चों ने सांता क्लाज की पोशाक पहनकर ट्रॉफी बांटी और एक दूसरे को बधाई दी।क्रिसमस पर्व पर सुबह सवेरे से ही मोहल्ला हिरन वाला के नजदीक स्थित सेंट जॉन्स चर्च में ईसाई समुदाय के लोग एकत्र होना शुरू हो गए थे। इस अवसर पर पादरी सुशील मशीह ने बताया कि प्रभु यीशु को मानव रूप में इस पृथ्वी पर आना पड़ा, ताकि सब लोगों का उद्धार हो सके। जिनके जीवन में अंधकार हो चुका था,उनके सामने कोई रास्ता नहीं था वह पाप के बंधन से आजाद हो सके। उन्होंने लोगों से आवाहन करते हुए कहा कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने सब लोगों से प्रेम किया। हम सब लोग इस क्रिसमस के मौके पर एक दूसरे के साथ भाईचारा और प्रेम करने वाले बने, इसके बाद सभी लोगों को क्रिसमस और नए साल की मुबारकबाद दी गई। वही चर्च कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। तथा चर्च में सुबह से लेकर रात्रि तक कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा देर रात तक क्रिसमस डे मनाया गया इस मौके पर मुख्य रूप से पादरी सुशील मसीह, जितेंद्र विश्वासी,पास्टर मेहकार सिंह,डेबरा मसीह, शैन मसीह, राखी मसीह, रिबिका सब्बरवाल, शान सब्बरवाल, आलीवर मसीह, अभिमसीह, सुंदर सिंह, बबलू मसीह, मनोज, पप्पू आदि मौजूद रहे।

'खेलों के आयोजन से विद्यार्थियों में जागरूकता एवं उनके जीवन को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास विवेकानंद

तौफीक खान संवादाता बस्ती

बस्ती। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित बस्ती नगर खेल कुंभ का उद्घाटन शहर के किसान डिग्री कॉलेज परिसर में हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता एवं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा जी रहे जिन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्ज्वलित कर, फीता काटा एवं खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इस दौरान मंच पर विद्यार्थी परिषद के जिला प्रमुख डा धर्मेंद्र सिंह जी, किसान इंटर कॉलेज के अंग्रेजी विषय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जितेंद्र कुमार शाही जी एवं नगर मंत्री आशुतोष पांडे जी उपस्थित रहे विवेकानंद जी ने उद्घाटन उद्बोधन में खिलाडियों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थी परिषद युवाओं में खेल भावना को बढ़ाने एवं उनकी प्रतिभा को मंच देने के लिए बस्ती नगर खेल कुंभ के माध्यम से एक सकारात्मक प्रयास कर रही है। विद्यार्थी परिषद इस तरह के प्रयास अपने स्थापना कल से ही करते आ रही है मुझे स्वयं भी विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहते हुए इस तरह के आयोजन करने का सौभाग्य मिलता रहा है जिला प्रमुख डा धर्मेंद्र सिंह जी ने कहा की नगर खेल का काम युवाओं की प्रतिभा के संगम का माध्यम है सभी खिलाड़ियों को इस कुंभ का सहभागी बनने हेतु सभी का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं लेफ्टिनेंट जितेंद्र कुमार शाही जी ने कहा कि "अभाविप द्वारा आयोजित खेल कुंभ सिर्फ प्रतियोगिता नहीं, बल्कि खेलों के माध्यम से युवाओं को एकजुट करने, उनके भीतर की प्रतिभा को निखारने और फिटनेस के महत्व को समझाने का एक प्रयास है। खेल कुंभ सिर्फ प्रतियोगिता नहीं, बल्कि खेलों के माध्यम से युवाओं को एकजुट करने, उनके भीतर की प्रतिभा को निखारने और फिटनेस के महत्व को समझाने का एक प्रयास है फुटबॉल प्रतियोगिता में बेगम खैर , टीम आकाश, बी0एफ0ऐ0 की टीम विजेता रही तथा जीवीएम और केडीसी की टीम उपविजेता रही । इसके अतिरिक्त सीएमएस , श्री राम की टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया इस दौरान जिला संगठन मंत्री सात्विक श्रीवास्तव जी, जिला संयोजक विकास कसौधन जी, अखिलेश जी, मारुत पाण्डेय जी , अमरेंद्र पाण्डेय जी , अंकित शुक्ला ,अभिषेक चौधरी ,विशाल कसौधन महेंद्र चौधरी और शुभेंदु एवं अन्य प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे इन सारी प्रतियोगिताओ का सम्मान समारोह 31/12/24 को अटल बिहारी वाजपेई प्रेक्षागृह में होना है।

रामशरन सुशीला आनंद हाई स्कूल में अटल बिहारी वाजपेई जी की सौ वी जयंती मनाई गई

लोक तंत्र की शान
प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुर। बुधवार को नगर के प्रगतिशील विद्यालय रामशरन सुशील आनंद हाई स्कूल में भारत के दसवें प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई जी की 100 वी जयंती मनाई गई, इस अवसर पर विद्यालय के समस्त छात्र-छात्राओं एवं अध्यापक अध्यापिकाओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई जी के चित्र के सम्मुख पुष्प अर्पित किए और उन्हें नमन किया, इस मौके पर विद्यालय के प्रबंधक सुशील चंद्र सक्सेना ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई जी भारत के दसवें प्रधानमंत्री हुए और उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 ई को हुआ था, वही इस मौके पर विद्यालय के अध्यक्ष एडवोकेट पंडित रविशंकर शर्मा ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई जी महान कवि, प्रखर वक्ता थे तथा उन्होंने भूख, भय निरक्षरता तथा अभाव मुक्त भारत का सपना देखा था , इस मौके पर मुख्य रूप से विद्यालय के प्रधानाचार्य निशांत त्यागी, सोमवती कश्यप, राजीव शर्मा, अनुराधा चौधरी, अंशु त्यागी, चरण सिंह, भावना सक्सेना, मंजरी दीक्षित, अफसा, खुशबू शर्मा, लक्ष्मी रस्तोगी, अंश सक्सैना, सदफ, स्वाति, नीलम, चंद्रशेखर सिंह , अतुल मथुर आदि सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ एवं छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

विभिन्न मंदिरों में एवं घरों पर तुलसी दिवस पर किया गया तुलसी पूजन

लोक तंत्र की शान
प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुर। बुधवार को नगर के विभिन्न मंदिरों एवं सनातन धर्म के लोगों के घरों पर तुलसी दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया तथा तुलसी दिवस पर मां तुलसी का पूजन विधि विधान के अनुसार किया गया नगर के झारखंड महादेव शिवाला मंदिर पर पंडित देवेंद्र शर्मा द्वारा विधि विधान के अनुसार मां तुलसी का पूजन कराया गया, जिसमें मुख्य यजमान के रूप में व्यापारी नेता अंकुर अग्रवाल रहे, इस संबंध में पंडित देवेंद्र शर्मा ने उपस्थित श्रद्धालुओं को तुलसी पूजन के लाभ एवं तुलसी का पौधा लगाने तथा वितरित करने के लाभ बताएं उन्होंने कहा कि तुलसी का पौधा जिस घर में होता है उसे घर में सुख, शांति, संपत्ति, समृद्धि बनी रहती है अतः तुलसी का पौधा घर में लगाने से लक्ष्मी का बास रहता है, तुलसी दिवस पर मां तुलसी की आरती की गई एवं उसके बाद प्रसाद का वितरण किया गया तथा भजन कीर्तन भी हुआ, इस मौके पर मुख्य रूप से व्यापारी नेता एवं शिवाला प्रबंध कमेटी के प्रबंधक अंकुर अग्रवाल, कोषाध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल, सौरभ अग्रवाल, गिरजा शंकर बंसल, पंडित सतवीर गिरी, पप्पू गिरी, संजीव शर्मा, देवेंद्र शर्मा, महेश शर्मा, दामोदर शर्मा, उमेश शर्मा, राहुल हिंदुस्तानी, मोहित अग्रवाल तथा भारी संख्या में महिलाएं एवं बच्चे मौजूद रहे।

पूरनपुर के होटल में रुके थे खालिस्तानी आतंकी, एसपी अविनाश पांडे ने कुछ घंटे में खोज निकाले अहम सुराग।

लोकतंत्र की शान
संवाददाता-मंजीत शर्मा
पीलीभीत

सीसीटीवी कैमरे में आते हुए दिखाई दिए आतंकी।

पीलीभीत पूरनपुर। पीलीभीत पुलिस ने चलाया सर्च अभियान, खालिस्तानी आतंकवादियों से पीलीभीत पुलिस व पंजाब पुलिस की मुठभेड़ के बाद पीलीभीत पुलिस चौकस,12 टीमों का किया गया है गठन सर्च अभियान तेज, पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने संभाली कमान भारी पुलिस बल के साथ किया फ्लेग मार्च। एसपी अविनाश पांडे ने कुछ घंटे में खोज निकाले अहम सुराग,पीलीभीत पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि तीनों आतंकी पूरनपुर में स्थित एक होटल में रुके थे तीनों खालिस्तानी आतंकी।आतंकियों ने होटल में रुकने के लिए फेक आईडी का भी इस्तेमाल किया,फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवाएं और नाम व पता बदलकर फर्जी आईडी देकर होटल में रहें खालिस्तानी आतंकी। पूरनपुर के हर जी होटल में रुके थे तीनों आतंकी,एसपी ने खोज निकाला आतंकियों का ठिकाना, सीसीटीवी वीडियो में आते दिखाई दे रहे तीनों आतंकी, व एक अन्य युवक, पीलीभीत पुलिस के द्वारा लगातार सर्च अभियान चलाकर पनाह देने वाले लोगो की की तलाश जारी है। मंगलवार को सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर दी खालिस्तानी पन्नू ने धमकी।एसपी पीलीभीत के निर्देश पर साइबर थाने में कराया गया मुकदमा दर्ज।मंगलवार को सोशल मीडिया पर धमकी भरा वीडियो आया सामने , पुलिस अलर्ट। पीलीभीत मे मारे गए 3 खालिस्तानी आतंकी के प्रकरण मे आया नया मोड़, खालिस्तानी आतंकी गुरवंत सिंह पन्नू ने एक धमकी भरी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की,इसके बाद पीलीभीत पुलिस ने वीडियो पर संज्ञान लेते हुए गुरवंत सिंह पन्नू के विरुद्ध पीलीभीत के साइबर थाने मे अभियोग पंजीकृत कराया है। लगातार पीलीभीत पुलिस व ठकअ की टीम के द्वारा लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। आरोपियों को पनाह देने वाले लोगो की तलाश, अहम सुराग खोजने की जांच कर रही है।

सुशासन के लिए सुरक्षा का भाव आवश्यक: सीएम योगी

लखनऊ, 25 दिसंबरः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुशासन के लिए सुरक्षा का भाव आवश्यक है। यह जनसहभागिता के बिना संभव नहीं हो सकता। सुरक्षा का भाव घर के अंदर से पैदा करना होगा। यदि व्यक्ति घर के अंदर सुरक्षित है तो सामुदायिक रूप से सुरक्षा का भाव स्वतस्फूर्ति भाव के साथ पैदा होता हुआ दिखाई देगा। अपराध-अपराधियों, भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचारियों के लिए सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। अटल जी व पीएम मोदी से प्रेरणा प्राप्त करते हुए सरकार ने सुरक्षा के मुद्दे पर पहले दिन से जीरो टॉलरेंस की जो नीति रखी है, इसके परिणाम सबके सामने हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'भारत रत्न' अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह में शिरकत की। रक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री समेत जनप्रतिनिधियों ने लोकभवन में पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी की। सीएम ने महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती व क्रिसमस की बधाई दी। छात्रा स्नेहा तिवारी ने कविता सुनाई। रक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी सम्मानित किया।

अटल जी ने सुशासन की नींव को दी मजबूती

सीएम ने कहा कि अटल जी ने अपने शासनकाल में सुशासन की नींव को मजबूती दी। अटल जी की पंक्तियां 'आदमी को चाहिए कि वह जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े'..., 'एक पांव धरती पर रखकर ही वामन भगवान ने आकाश-पाताल को जीता था, धती ही धारण करती है, कोई उस पर भार न बने, मिथ्या-अभिमान से न तने...' यह पंक्तियां हमें प्रेरणा प्रदान करती हैं।

अटल जी ने जो नींव रखी, पीएम मोदी के नेतृत्व में उस पर नए भारत का हो रहा निर्माण

सीएम ने कहा कि भावी भारत के विकास व विकसित भारत के निर्माण के लिए जो नींव श्रद्धेय अटल जी ने रखी थी, पीएम मोदी के नेतृत्व में उस पर नए भारत का निर्माण हो रहा है। यह 2047 में विकसित भारत के रूप में 140 करोड़ की आकांक्षाओं की पूर्ति का भारत बनेगा।

तीन स्तरीय चेकिंग के बाद ही मिलेगी महाकुम्भ मेला क्षेत्र में एंट्री

महाकुम्भनगर, 25 दिसम्बर : नए साल को लेकर महाकुम्भनगर में मंदिरों और प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी के साथ महाकुम्भ मेला क्षेत्र, प्रयागराज और आसपास के जिलों में खुफिया तंत्र भी सक्रिय हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप सुरक्षित महाकुम्भ की तैयारी पूरी कर ली गई है। गलत इरादों को लेकर यहां कोई भी प्रवेश न कर सके, इसके लिए जनपद प्रवेश के दौरान एक एक व्यक्ति की चेकिंग का इंतजाम किया गया है। सबसे जरूरी बात ये है कि संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए खुफिया दस्ते तैनात कर दिए गए हैं।

खुफिया तंत्र पूरी तरह सक्रिय

सीएम योगी की मंशा के अनुरूप महाकुम्भ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जमावड़े को लेकर विशेष तैयारी की गई है। महाकुम्भनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि इस बार के महाकुम्भ को अविस्मरणीय बनाया जाए। जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत और हाईटेक किया जा रहा है। महाकुम्भ पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है। नए साल को लेकर महाकुम्भनगर की पुलिस पूरे अलर्ट मोड में आ गई है। विशेष तौर पर मंदिरों और प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। महाकुम्भ, प्रयागराज और आसपास के जिलों में तीन स्तरीय सुरक्षा तंत्र मुस्तैद किया गया है, जिससे एक एक श्रद्धालु की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। यही नहीं, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस का खुफिया दस्ता सक्रिय है। इनका काम किसी भी संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारियों से तालमेल बनाकर सेफ्टी ऑपरेशन को मजबूती से लागू करना है। सीएम योगी के निर्देश पर महाकुम्भनगर पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर कई चेकिंग प्वाइंट बनाए हैं, ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके।

एआई कैमरे, ड्रोन, एंटी ड्रोन, टीथर्ड ड्रोन के साथ साइबर पेट्रोलिंग तेज

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी का विशेष फोकस इस बार डिजिटल महाकुम्भ पर है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन में एआई कैमरों का इस्तेमाल शुरू किया है। यही नहीं ड्रोन, एंटी ड्रोन और टीथर्ड ड्रोन अपने स्तर पर अलग अलग मोर्चे पर तैनात किए गए हैं। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की साइबर सुरक्षा का भी विशेष इंतजाम किया गया है। इसी के मद्देनजर साइबर पेट्रोलिंग भी तेज कर दी गई है। महाकुम्भनगर की सुरक्षा व्यवस्था में सबसे काबिल पुलिसकर्मियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है।

सीएम योगी ने अटल जी की जीवनी पर आधारित प्रदर्शनी का किया उद्घाटन

लखनऊ, 25 दिसंबरः 'भारत रत्न' पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने अटल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके अद्वितीय व्यक्तित्व और कृतित्व को नमन किया। प्रदर्शनी में अटल जी के छात्र जीवन से लेकर उनके प्रभावशाली राजनीतिक सफर को क्रमवार ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसमें उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान लिए गए ऐतिहासिक फैसलों, भारत के विकास व समृद्धि के बड़े प्रयासों को भी रेखांकित किया गया है। प्रदर्शनी में अटल जी की देशभक्ति, सेवा और अदम्य साहस को बखूबी दर्शाया गया है। इसमें शामिल हर विवरण बहुआयामी व्यक्तित्व के साथ राष्ट्रनिर्माण में उनके योगदान की गवाही देता है। उनकी दूरदर्शी सोच ने भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई। उनकी विरासत हमें हमेशा मार्गदर्शन देती रहेगी। मुख्यमंत्री योगी ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए अटल जी से जुड़ी स्मृतियों को ताजा किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 'भारत रत्न' अटल बिहारी वाजपेयी जी के कटआउट के साथ फोटो खिंचवाई। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, महामंत्री (संगठन) धर्मपाल, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख, महापौर सुषमा खर्कवाल, विधायक अनुपमा जायसवाल, सुरेंद्र मैथानी, विधान परिषद सदस्य रामचंद्र प्रधान, गोविंद नारायण शुक्ल, पूर्व मंत्री मोहसिन रजा आदि मौजूद रहे। सभी ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

अटल बिहारी वाजपेयी ने सड़कों के माध्यम से देश को जोड़े की योजना बनाई।

कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह

करनाल सुखविन्दर सोही

करनाल। बुधवार को करनाल पहुंचे कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने सर्व कल्याण मंच की ओर से आयोजित अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन मान कालोनी में भाजपा युवा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष मनीत प्रजापत के निवास पर किया गया था। भाजपा कार्यकताओं व प्रजापति (कुम्हार) चौपाल समिति ने कैबिनेट मंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सुशासन दिवस भारत के तीन बार प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ा हुआ है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। उनकी जयंती को ही सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने सडकों के माध्यम से देश को जोड़े की योजना बनाई। स्वर्णिम चतुर्भुज सडक परियोजना प्रारंभ की। इसके साथ-साथ उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना प्रारंभ की। इन योजनाओं के कारण विकास कार्यों की गति तीव्र हुई। कार्यक्रम के बाद प्रजापति (कुम्हार) चौपाल समिति ने मंत्री के समक्ष मांग रखी कि करनाल में प्रजापति धर्मशाल की स्थापना के लिए जल्द से जल्द जमीन उपलबध करवाई जाए। इस पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार यह मांग जल्द पूर्ण करेगी। इस मौके पर लड़ी संधू लाभ सिंह अशोक नारवाल राम कुमार प्रधान, राममेहर आर्य, प्रजापति (कुम्हार) चौपाल समिति प्रतिनिधि धर्मवीर आर्य, मनीत प्रजापत, देवी दयाल, पदम, राज कुमार जुंडला, डा. सुरेश, नवीन सरोहा, तरूण, साहिल कलवेहड़ी, रविंद्र आर्य व ओमप्रकाश आदि मौजूद रहे।

हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमैंट कमेटी के चुनाव में राजिंद्र सिंह लक्की हांडीखेड़ा ने पहला नामांकन पत्र भरा

- झींडा ग्रुप में सदस्य आजाद उम्मीदवार बनकर चुनाव मैदान में

साहा, दिसंबर : हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का चुनाव हरियाणा में पहली बार होने जा रहा है इस चुनाव को लेकर हरियाणा की सिख संगत में काफी उत्साह है इस चुनाव में जिला अंबाला के नारायणगढ़ सीट से सबसे पहला नामांकन पत्र राजिंद्र सिंह लक्की गांव हांडीखेड़ा ने आजाद उम्मीदवार के रूप में भरा वे काफी उत्साहित दिखे 28 साल के युवा राजिंदर लक्की बीकॉम ग्रैजुएट है एनसीसी कैडेट है सोशल वर्किंग करते हैं और सी एस सी सेंटर चलाते हैं। और सिख मसलो पर एक्टिव रहते हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा की कमेटी के लिए गांव हांडीखेड़ा और इलाके की संगत ने जगदीश सिंह झिंडा के नेतृत्व में 22 साल से ज्यादा लंबे समय तक संघर्ष किया उनके गांववासी हर धरने प्रदर्शन में झींडा साहब के साथ रहे जेल भी काटी लाठी चार्ज भी हुए अब झींडा ग्रुप से टिकट लेने वालों में होड़ मची हुई है वे टिकट वितरण कमेटी से भी मिले कुछ सदस्यों ने हमें अभी बच्चे कहकर संबोधित किया जिससे वे मायूस हुए इसलिए गाँव और इलाके की संगत से सलाह करके उन्होंने आजाद प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन भर दिया और दावा किया कि मैं और हमारे साथी मिलकर संघर्ष करेंगे इस सीट को जीतकर दिखाएंगे यह भी कहा कि आजाद जीतकर भी हमारा समर्थन झींडा साहब को रहेगा क्योंकि उनके संघर्ष के कारण ही यह कमेटी होंद में आई है इसीलिए आज हरियाणा की संगत यह चुनाव लड़ पा रहे हैं यदि वे संघर्ष ना करते तो हरियाणा की अपनी कमेटी ना बन पाती तो फिर कोई चुनाव कैसे लड़ सकता था उनका पहला हक बनता है उन्होंने इलाके की संगत को उनके साथ देने की अपील भी की।

भारत में नशा आतंकवाद से भी ज्यादा फन फैला रहा है : वीरेश शांडिल्य

नशे के खिलाफ सामूहिक जनआंदोलन की जरूरत : शांडिल्य

अंबाला, दिसंबर : भारत में नशा आतंकवाद से भी ज्यादा फन फैला रहा है और इसके पीछे सीधे तौर पर पाकिस्तान की साजिश है जिसको लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह बड़ा फैसला लें उपरोक्त शब्द एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने कहे। वीरेश शांडिल्य पंजाब के तीन बार कैबिनेट मंत्री रहे डॉ. हरबंस लाल द्वारा साहिबजादों की याद में नशे के विरूद्ध रखे सेमीनार में मुख्यातिथि के रूप में पहुंचे जहां उन्होंने सबसे पहले साहिबजादों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि गुरू तेग बहादुर और गुरू गोबिंद सिंह की कुर्बानियों के कारण आज ब्राहमण समाज व सनातन धम जिंदा है। वीरेश शांडिल्य ने कहा कि नौंवे गुरू व दसवें गुरु का एहसान ब्राहमण व सनातनी कभी नहीं दे सकते।

वीरेश शांडिल्य ने पंजाब सरकार में तीन बार कैबिनेट मंत्री रहे डॉ. हरबंस लाल द्वारा रखे नशे के खिलाफ सेमीनार में कहा कि नशा आज मात्र पंजाब या हरियाणा या चंडीगढ़ हिमाचल या दिल्ली की जवानी को खत्म नहीं कर रहा बल्कि देश के भविष्य को खत्म कर रहा है। इस मौके पर सुरेंद्र पाल केके, गुरशरण सिंह बिट्टू, मनीश पासी सहित हा दा नारा चेतना मंच केपदाधिकारी स समाजसेवी भी मौजूद थे।

डीसी मॉडल सीनियर सैकेंडरी स्कूल में क्रिसमस पर विशेष सभा

कार्यक्रम के दौरान प्रिंसिपल अनीता लक्ष्मीधर, अध्यापक व छात्र।

अम्बाला छावनी : डीसी मॉडल सीनियर सैकेंडरी स्कूल में धूमधाम से क्रिसमस समारोह मनाया गया। प्रिंसिपल अनीता लक्ष्मीधर ने बताया कार्यक्रम में छात्रों ने प्रभु यीशु के जीवन पर आधारित गीत और नृत्य प्रस्तुत किए। बच्चो ने सांता क्लॉज का वेश धारण किया और टॉफियां बांटी गई। स्कूल प्रिंसिपल ने बच्चों को यीशु मसीह के संदेशों पर जोर देते हुए मानव सेवा और परोपकार का महत्व समझाया। यीशु मसीह के जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश दिया और उनके जीवन के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर स्कूल के द्वारा जरूरत मंद लोगों की विभिन्न अन्न व जरूरत की चीजों से मदद की। इस अवसर पर जनरल मैनेजर कीर्ति तलवार, राजिंदर चहल,रतना आहूजा, प्रीति भट्ट, किरण, मयूरी अवनीत,रीतिका गुप्ता, मीनाक्षी के साथ अन्य भी उपस्थित थे।

चुनाव संचालन नियमों में संशोधन वापस ले सरकार : सीपीएम

राज्य सचिव सुरेंद्र सिंह व जिला सचिव सतीश सेठी।

नारायणगढ़, दिसम्बर : भारत की कम्युनिस्ट पार्टी एवं मार्क्सवादी ने मोदी सरकार द्वारा चुनाव संचालन नियमों में संशोधन करने के कदम पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज करवाते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला बताया हैं।

सीपीएम राज्य सचिव कामरेड सुरेंद्र सिंह व जिला सचिव सतीश सेठी ने कहा कि यह संशोधन इसलिए किया गया है ताकि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की वीडियो और अन्य डिजिटल ट्रेल्स सहित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तक पहुँच को प्रतिबंधित किया जा सके। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों के परामर्श से शुरू में ही इन प्रावधानो को लागू किया था।

सीपीएम नेताओं ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि सरकार ने नए नियमों का मसौदा तैयार करते समय भारत के चुनाव आयोग के साथ परामर्श किया था। इसलिए सीपीआई;एम चुनाव संचालन नियमों में प्रस्तावित संशोधनों को तत्काल वापस लेने की मांग करती है।

राशिफल 25-12-2024 (बुधवार)

मेष
व्यापारिक लाभ के रास्ते खुलेंगे, शुभ भावनाओं के उदय से आत्मविश्वास बढ़ेगा, मान-सम्मान युक्त कार्य पूरा होगा, गृहस्थ जीवन में मधुरता, राजकीय पक्ष से सहयोग।

वृषभ
विचाराधीन योजना का कार्य रूप में परिणित, वाद-विवाद का समापन, वैवाहिक जीवन में सुख शांति का वातावरण, दर्शनीय स्थलों की यात्रा का प्रसंग उपस्थित होगा।

मिथुन
आर्थिक पक्ष में असंतोष, सिद्धि का प्रयास निष्फल, बात-बात पर क्रोध, भुगतान को लेकर परेशान, मित्रों से अनबन, व्यर्थ की भागदौड़ में समय नष्ट, हानि भी।

कर्क
व्यापारिक लाभ के रास्ते खुलेंगे, शुभ भावनाओं के उदय से आत्मविश्वास बढ़ेगा, मान-सम्मान युक्त कार्य पूरा होगा, गृहस्थ जीवन में मधुरता, राजकीय पक्ष से सहयोग।

सिंह
पारिवारिक उत्तरदायित्व की पूर्ति,विनियोजित धन का प्रतिफल आशानुकूल प्राप्त, दूसरों के आश्वासन से मानसिक राहत, आमोद-प्रमोद के साधन सुलभ होंगे।

कन्या
घरेलू समस्याओं से चिंतित, धन का अभाव, किसी मुद्दे पर तनाव, दूसरों की गलतफहमी के शिकार, पारस्परिक संबंधों में मनमुटाव, प्रतियोगिता में विफलता की आशंका।

तुला
पूंजी का प्रतिफल आशानुकूल, नौकरी में पदोन्नति, पारिवारिक उत्तरदायित्व की पूर्ति, परोपकार की भावना जागृत, निजी जिंदगी में नवीन उपलब्धि हासिल होने की ओर।

वृश्चिक
कारोबार में लगे बकाए धन की प्राप्ति, यश-मान प्रतिष्ठा परक कृत्य संपन्न, आपसी सलाह से कामयाबी मिलने की ओर, विचाराधीन योजना मूर्तरूप में परिणित।

धनु
किसी योजना की शुरुआत हेतु प्रयत्नशील, आय के नवीन स्त्रोत, स्थान परिवर्तन का कार्यक्रम उपस्थित, आहार-विहार में नवीनता, दर्शनीय स्थलों की यात्रा में मन प्रफुल्लित।

मकर
अधूरी योजना प्रगति पर, घरेलू वातावरण सुखद, परोपकार की भावना जागृत, सुसंदेश मिलने से खुशी, दर्शनीय स्थलों की यात्रा का प्रसंग, उत्तरदायित्व की पूर्ति भी।

कुंभ
लाभ का सुअवसर, अधीनस्थ सहयोगियों से सहयोग, भौतिक सुख के साधन सुलभ, जन कल्याण की ओर रूझान, इच्छित पद की प्राप्ति, उपस्थित व्यवधान समाप्त, यात्रा भी।

मीन
मित्रों के सहयोग से कार्य संपन्न होने की ओर, वाद-विवाद का समापन पक्ष में, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता, राजकीय पक्ष से सहयोग, आमोद-प्रमोद के साधन सुलभ।

सुडोकू

6			8				2	
				3		6	8	
	9				4			7
	2		3	1				6
5				7	6		1	
3			5				6	
	5	9		2				
	1				9			3

सुडोकू- कल का उत्तर

9	2	6	8	1	7	5	4	3
4	1	8	9	5	3	6	7	2
5	7	3	2	6	4	9	1	8
2	6	4	7	8	1	3	9	5
8	3	7	5	9	2	4	6	1
1	5	9	3	4	6	8	2	7
6	4	2	1	3	8	7	5	9
3	9	1	4	7	5	2	8	6
7	8	5	6	2	9	1	3	4

आड़े, खड़े व 3x3 के वर्ग में 1 से 9 तक के अंक इस प्रकार भरें कि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो। पहेली के एक से अधिक हल हो सकते हैं।



विक्रमी संवत 2081, शके 1946, सूर्य दक्षिणायण, शरद ऋतु, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की दशमी तत्पश्चात एकादशी, चित्रा नक्षत्र तत्पश्चात स्वाती नक्षत्र, अतिगण्ड योग तत्पश्चात सुकर्मा योग, चन्द्रमा तुला राशि में विद्यमान।

राहुकाल: दोपहर 12:21 से 01:39 बजे तक।

वीर बाल दिवस पर जीजी ओपन स्कूल ने केक काटकर मनाया मिस नित्या अग्रवाल का जन्मदिन

बेटी के जन्मदिन पर छात्रों को बैग वितरित करते अनुभव अग्रवाल व साथ में बेटी मिस नित्या अग्रवाल

अंबाला शहर, दिसम्बर : वीर बाल दिवस और नए साल 2025 के जश्न का आयोजन जीजी ओपन स्कूल (अम्बाला छावनी) द्वारा किया गया था। मुख्य अतिथि अनुभव अग्रवाल (सुदर्शन परिवार के अध्यक्ष) अपने परिवार के सदस्यों कुसुमलता अग्रवाल (संस्थापक सुदर्शन परिवार), प्रिया अग्रवाल, नित्या अग्रवाल, भारती लांबा और श्याम रानी के साथ इस अवसर को सुशोभित करने के लिए उपस्थित थे, साथ साथ उनकी पुत्री नित्या अग्रवाल का जन्म दिन भी स्कूल में मनाया गया। छात्रों द्वारा चार साहिबजादों और माता गुजरी जी की याद में सुंदर नृत्य प्रदर्शन, कविता, श्लोक और मधुर गीत प्रस्तुत किए गए। जीजी ओपन स्कूल ने अनुभव अग्रवाल की पुत्री मिस नित्या अग्रवाल के जन्मदिन को केक काट कर मनाया। प्रिंसिपल सुजिता गुप्ता एवं अन्य स्टाफ ने नित्या को आने वाले वर्षो में अच्छे स्वास्थ्य की ढेरों शुभकामनाएँ एवं आशीर्वाद दिए और बेटी को कहा कि भगवान आपको जीवन में सफलता प्रदान करें। इस अवसर पर बच्चों को बैग, जीमेंट्री बॉक्स, खाद्य पदार्थ और नोटबुक वितरित किए गए। अनुभव ने बच्चों को पेड़ लगाने, पर्यावरण को स्वच्छ रखने, अधिक अध्ययन करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। स्कूल प्रबंधन ने सुदर्शन समूह के पूरे परिवार को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।

बी.पी.सी जैन पब्लिक स्कूल में मनाया क्रिसमस और तुलसी पूजन दिवस

कार्यक्रम के दौरान प्रधानाचार्य के साथ विद्यार्थी।

- कार्यक्रम में ईसा मसीह के जन्म से संबंधित और विश्व पूजिता तुलसी पर बच्चो ने दी स्पीच

अम्बाला छावनी, दिसंबर : बी.पी.सी जैन पब्लिक स्कूल में क्रिसमस और तुलसी पूजन दिवस के अवसर पर छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर सालाना क्रिसमस और तुलसी पूजन दिवस का त्योहार धूमधाम से मनाया। यह कार्यक्रम रचनात्मकता और आनंद की भावना से भरपूर था, जो सभी को एक साथ इस खुशी के मौके को सांझा करने का अवसर प्रदान करता है। कार्यक्रम की शुरूआत ईसा मसीह के जन्म से संबंधित और विश्व पूजिता तुलसी पर एक स्पीच के द्वारा की गई। इसके पश्चात किंडरगार्डन के छोटे-छोटे बच्चों ने रंग-बिरंगे परिधानों में सज कर और सुंदर-सुंदर क्रिसमस गीतों पर नृत्य किया और सबका मनमोहन लिया। इस अवसर पर कक्षाओं में भी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। जिसमें सेंटा, सेंटा हाउस, क्रिसमस ट्री, स्नोमैन, क्रिसमस बेल्स, क्रिसमिस फेरी, डियर आदि बनवाए गए। अंत में प्रधानाचार्य ने कार्यक्रम के समापन पर स्कूल की एक्टिविटी इंचार्ज पारुल यादव और सभी अध्यापिकाओं और बच्चों का आभार व्यक्त करते हुए कहा किह यह महोत्सव केवल क्रिसमस का उत्सव नहीं बल्कि बी.पी.सी जैन स्कूल की गर्म जोशी और एकता का उत्सव है। इसी के साथ बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हौने सभी को क्रिसमस और तुलसी पूजन दिवस की बधाई दी।

डोर टू डोर कूड़ा उठान न होने पर वार्ड न. 2 के पार्षद नरेन्द्र शर्मा ने अपने खर्चे पर कूड़ा का उठान किया

वार्ड न. 2 से कुड़ा उठाती ट्रैक्टर ट्राली व जानकारी देते पार्षद नरेन्द्र शर्मा।

नारायणगढ़ : नगरपालिका नारायणगढ़ में डोर टू डोर कूड़ा उठाने का टैंडर समाप्त हुए लगभग एक सप्ताह बीत चूका है और शहर के लोगो के लिए कूड़ा निपटान की समस्या एक बार फिर मुसीबत बन गई है,लेकिन अधिकारी नही ले रहे सुध। इसी समस्या को देखते हुए वार्ड नंबर 2 के पार्षद नरेंद्र देव शर्मा अपने वार्डवासियों को राहत पहुंचाने के लिए एक बार फिर से निजी खर्च पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगा कर मैदान में उत्तर गये है और घर घर से कूड़ा उठाने का काम किया। बता दें कि स्थानीय नगरपालिका में डोर टू डोर कूड़ा उठाने का टेंडर 18 दिसंबर को समाप्त हो गया है जिससे घरो से कूड़ा उठाने का कार्य रुक गया है शहर में कूड़े के अम्बार लग गए है कूड़ा न उठने से लोगो का जीना मुहाल हो गया है। यंहा यह भी काबिले जिक्र है कि इससे पहले भी इसी तरह के हालात पैदा होने पर नरेंद्र देव शर्मा ने इसी तरह ट्रैक्टर ट्रॉली लगा कर लोगों की मुसीबत को कुछ कम करने का प्रयास करते हुये अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया था

पार्षद नरेंद्र देव शर्मा ने स्थानीय व जिला प्रशासन से मांग की है कि लोगो की परेशानी को देखते हुए तुरंत डोर टू डोर का टेंडर लगाया जाये व प्रक्रिया पूरी होने तक वेक्ल्पिक व्यवस्था की जाए।

ब्रेन वेव पब्लिक स्कूल नहौनी में वार्षिक खेल दिवस समारोह

- प्री नर्सरी से लेकर सभी कक्षाओ के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक खेल प्रतियोगिताओं में लिया भाग

खेल प्रतियोगिता में भाग लेते विद्यार्थियों के साथ अध्यापक।

साहा, दिसम्बर : ब्रेन वेव पब्लिक स्कूल नहौनी में वार्षिक खेल दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चेयरमैन इंद्रराज कुमार, मैनेजर रमणीक कुमार व प्रिंसीपल डा. सुनीता कुमार उपस्थित थे। जिन्होंने दीप प्रज्जवलित कर समारोह का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरूआत बच्चों दवारा मशाल जलाकर की गई। सबसे पहले प्रत्येक खेलकूद में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया। चेयरमैन इंद्रराज कुमार ने सलामी ली इसके बाद खेल शुरू हुए। बच्चों द्वारा पी.टी व ड्रिल का भी प्रदर्शन किया गया। प्री नर्सरी से लेकर सभी कक्षाओ के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया। विभिन्न प्रतियोगिताओ में बॉडी बैलेंस रेस, स्पाइडर रेस, ओबस्टेकल रेस, 3 पेयर रेस, मंकी रेस,योग, खो-खो व कबड्डी करवाई गई। सभी खेलों में बच्चों ने जोशपूर्वक भाग लिया। चेयरमैन इंद्रराज कुमार ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासन के कुशल नेतृत्व में अध्यापकगण एवं विद्यार्थियों का प्रदर्शन काफी सराहनीय है।

मैनेजर रमणीक कुमार ने भी कार्यक्रम की सफलता पर सबको बधाई दी और बताया कि खेलकूद शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है और मन व दिमाग शांतिपूर्ण, तेज और एकाग्रता के साथ सक्रिय रहता है।

प्रिंसिपल डा. सुनीता कुमार ने बताया स्कूल में विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ खेल की सुविधाएँ भी दी जाती हैं। शारीरिक शिक्षा बच्चों और बड़ों सबके जीवन में आत्मविश्वास और प्रेरणा लाता है। इसलिए प्रतिवर्ष हम अपने वि?द्यालय में वार्षिक खेल दिवस आयोजित करते हैं ताकि बच्चे अपने खेल के कौशल को और विकसित कर सकें। अंत में सभी विजेता वि?द्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। कक्षा छठी रोज, सातवीं लोटस व आठवीं रोज खो-खो के खेल में विजयी टीमे रही। कबड्डी में छठी, सातवीं व आठवीं लोटस सेक्शन की टीमे विजयी रही।अध्यापकों की प्रतियोगिता में प्रथम सुखबीर मैम, द्वितीय अंजलि मैम व तृतीय सरबजीत मैंम रही व कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीयगान द्वारा किया गया

सी-लाल चेरिटेबल ट्रस्ट ने 100 जोड़ी जूते, जूराबें व टोपियां जरुतमंद बच्चों को बांटी

जरूरत मंद बच्चों के साथ चमन लाल गुप्ता व संजीव गुप्ता।

अंबाला शहर : केपीए के महाविद्यालय में प्रधानाचार्या रेखा गोयल भागी की अध्यक्षता में सी-लाल चेरिटेबल ट्रस्ट से चमन लाल गुप्ता व संजीव गुप्ता ने सर्दी से बचाव के लिए जरूरतमंद बच्चों को करीब 100 जोड़े जूते, जूराबें व टोपियां वितरित की गई। ताकि ठंड में बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। प्रधानाचार्या रेखा गोयल भागी ने सी-लाल चेरिटेबल ट्रस्ट के चमन लाल गुप्ता व संजीव गुप्ता का आभार व्यक्त करते हुए इस नेक काम के लिए उन्हें धन्यवाद किया।

सेवा समिति गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में रंगोली कार्यक्रम

अम्बाला छावनी, दिसंबर : सेवा समिति गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के जन्मोत्सव के उपलक्ष में चतुर्थ चरण में रंगोली कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय की प्रधानाचार्या मामला गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न किया गया। इस कार्यक्रम में कक्षा आठवीं से कक्षा 12वीं के छात्राओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन दो ग्रुपों में किया गया। जूनियर टीम द्वारा पर्यावरण, नशा मुक्ति तथा सीनियर ग्रुप द्वारा बाल विवाह, महाकुंभ, भ्रूण हत्या तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सामाजिक कुरितियों पर रंगोली बनाई गई।

साहिबजादों के बलिदान दिवस पर केसर दूध का लंगर लगाया

बराड़ा, दिसंबर : गुरु गोबिंद सिंह जी के चार साहिबजादों की अमर शहादत को नमन करते हुए बलिदान दिवस पर आर्मी कैंटीन की ओर से केसर दूध का लंगर लगाया गया। इस सेवा में राहगीरों और स्थानीय लोगों ने बड़ी श्रद्धा के साथ प्रसाद ग्रहण किया। पौष माह में गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत की स्मृति में विभिन्न स्थानों पर लंगर और कीर्तन दरबार का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर लोगों ने उनकी शहादत को याद करते हुए श्रद्धा व्यक्त की। गौरतलब है कि आर्मी कैंटीन समाजसेवा में सदैव सक्रिय रहती है। गर्मियों में ठंडे पानी की छबील और अब सर्दियों में केसर दूध का लंगर आयोजित कर सेवा भाव को बढ़ावा दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष्य में स्लोगन प्रतियोगिता

अंबाला शहर : देव समाज कॉलेज फॉर गर्ल्स अंबाला शहर में एन एस एस विभाग द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया, जिसमें स्लोगन बनाने की प्रतियोगिता रखी गई। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है, जो उपभोक्ताओं के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है, इस दिन भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को लागू किया गया था, जो उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की रक्षा करता है। प्राचार्या मुक्ता अरोड़ा ने वार्लंटियर्स को अपने उपभोक्ता के रूप में जागरूक रहने और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने का संदेश दिया।निर्णायक की भूमिका प्रोफेसर सुखदीप कौर और प्रोफेसर एकता शर्मा ने निभाई। परिणाम इस प्रकार रहाः- नमन(बी. ए) प्रथम,प्रीत कौर (बी. कॉम) द्वितीय और गुरजीत कौर (बी. ए) तृतीय रही। कार्यक्रम का संयोजन एन एस एस प्रभारी प्रोफेसर पूनम रानी द्वारा किया गया।

द.एस.डी. विद्या स्कूल ने हर्षोल्लास से मनाया क्रिसमस

- कार्यक्रम में सांता क्लॉज ने बच्चों को उपहार बांटे

अम्बाला छावनी, दिसंबर : द. एस. डी. विद्या स्कूल के कक्षा आठवीं के छात्रों ने एस. डी. कॉलेज में क्रिसमस का त्योहार बड़े जोश और उमंग के साथ मनाया। यह आयोजन रचनात्मक प्रतिभा और क्रिसमस की सच्ची भावना का एक जीवंत प्रदर्शन था।इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पास्टर जस्टिस विश्वास का विद्यालय की निर्देशक प्राचार्या नीलइंद्रजीत कौर संधू द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अन्य अतिथियों में डॉ. नवीन गुलाटी (पूर्व गणित विभागाध्यक्ष, एस डी कॉलेज), वंदना मेहता (सीनियर और मिडिल विंग निर्देशक), शिक्षक, छात्र और अभिभावक उपस्थित थे।

समारोह की शुरूआत ऑर्केस्ट्रा की मनमोहक धुनों के साथ हुई, जिसने पूरे माहौल को उत्सवमय बना दिया। मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियों और एक अंग्रेजी कविता ने कार्यक्रम को और अधिक मनोरंजक बना दिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सांता क्लॉज का आगमन रहा, जिन्होंने बच्चों को उपहार बांटे और सभी के चेहरों पर मुस्कान लाने में कामयाब रहे।

कक्षा 8 के छात्रों ने एक चैरिटी ड्राइव का भी आयोजन किया, जिसमें जरूरतमंद बच्चों के लिए उपहार और आवश्यक वस्तुएं जुटाने की अपील की गई, जो इस त्योहार की सच्ची भावना,दया और उदारता को दशार्ता है। इस अवसर पर आशवी बंसल के अभिभावक और अनुप बंसल को सबसे सहायक अभिभावक होने का पुरस्कार दिया गया।प्राइमरी विंग निर्देशक और टोडलर विंग की समन्वयक अनुरूप जौहल के मार्गदर्शन में प्री-केजी से कक्षा 5 तक के छात्रों ने भी क्रिसमस के त्योहार को मनाने में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

अभिभावक को सबसे सहायक अभिभावक होने का पुरस्कार देते हुए प्राचार्या नीलइंद्रजीत कौर संधू।

कार्यक्रम के दौरान द. एस. डी. विद्या स्कूल के छात्र।

अखिल भारतीय अति पिछड़ा कपूरी एकता मंच

बगीचा रेस्टोरेंट में बुद्धू नोनिया एवं भीमा मल्लाह का शहादत दिवस मनाया गया।

(वर्ल्ड न्यूज फीचर नेटवर्क)

बेतिया। अखिल भारतीय अति पिछड़ा कपूरी एकता मंच सह वाम सेफ के तत्वाधान में बगीचा रेस्टोरेंट में शहीद बुद्धू नोनिया एवं शहीद भीमा मल्लाह का शहादत दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व विधान पार्षद रामबली सिंह चंद्रवंशी एवं बौद्ध महासभा के संरक्षक रविंद्र सिंह बौद्ध के नेतृत्व में दीप प्रज्वलित किया गया। मुख्य अतिथि पर्व पर विधान पार्षद रामबली सिंह चंद्रवंशी ने कहा कि 1930 में नमक सत्याग्रह में शाहिद बुद्धू नुनिया को नमक के खौलते काडाह हमें डाल दिया गया । उनकी शहादत को याद करते हुए उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग को अपने हक की

लड़ाई को एकजुट होकर लड़ना होगा। हम अपनी एकता के बल पर अपना हक ले सकते हैं। आज तक सत्ताधारी वर्ग के लोग अति पिछड़ा वर्ग को ठगते रहे हैं । वहीं भारतीय बौद्ध महासभा के संरक्षक रविंद्र बौद्ध ने कहां कि अति पिछड़ों की लड़ाई को हम सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे इसके लिए सम्मेलन में दिए गए निर्णय के आलोक में आंदोलन करेंगे। इस सम्मेलन के माध्यम से मांग करते हैं कि बुद्धू मुनिया एवं भीमा मल्लाह के नाम को इतिहास से जोड़ा जाए। हमारी यह लड़ाई बगीचा रेस्टोरेंट से शुरू हुई है और पूरे बिहार में यह आवाज गुजेंगे। बाबा साहेब का संविधान सबके लिए है। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित कार्यकताओं को एक कैलेंडर भगवान बुद्ध के नाम से समर्पित किया । कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत शिक्षक गोरख चौहान कार्यक्रम का संचालन रामू नोनिया ने किया। कार्यक्रम को संबोधन करने वालों में प्रबुद्ध भारती के राष्ट्रीय संयोजक विजय कश्यप जन सुराज के कृष्ण कुमार बिंद राघवेंद्र पाठक रश्मि राव तथा अति पिछड़ा वर्ग के राजेश्वर महतो अभिलाष महतो आनंद किशोर एवं सिकंदर राम शामिल रहे।

बेतिया में रेड क्रॉस द्वारा अग्नि पीड़ितों के बीच में राहत सामग्री बाटा गया

(वर्ल्ड न्यूज फीचर नेटवर्क)

पश्चिम चंपारण। भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, जिला शाखा, बेतिया द्वारा दो प्रखंडों के 1-1 अग्नि पीड़ितों के बीच रेड क्रॉस भवन में राहत सामग्री का वितरण किया गया। वितरण कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे चेयरमैन डॉ. सुशील प्रसाद चौधरी, सचिव डॉ. जगमोहन कुमार, कोषाध्यक्ष रजत कुमार तोदी, संयुक्त सचिव जगदेव प्रसाद ने बताया कि मझौलिया प्रखंड के रमपुरवा महनवा के चानसी सहनी एवं नौतन प्रखंड के नौतन दूबे के लालबाबू भगत के घर में विगत दिनों अगलगी हुई थी। दोनों पीड़ितों द्वारा राहत सामग्री के लिए रेड क्रॉस

को दिए गए आवेदन के आधार पर राहत सामग्री के रूप में तिरपाल, किचेन सेट, हाईजीन कीट, कंबल, बाल्टी आदि प्रदान किया गया है। वितरण कार्यक्रम में प्रबंध समिति सदस्य सैयद शकील अहमद व लालबाबू प्रसाद, आजीवन सदस्य बिहारी लाल प्रसाद उर्फ लाल दरोगा महतो, आदित्य कुमार, गंगा सागर, स्वयंसेवक प्रगति गुप्ता व इमरान कुरैशी, कर्मी मधुरेन्द्र चौबे व अजय राउत उपस्थित रहे।

आज से शुरू होगा 6 वां राज्य स्तरीय फुटबॉल महा संग्राम

उदघाटन मैच बरेली मंडल तथा लखनऊ की टीमों के बीच होगा मुकाबला

कालपी-उरई। मंगलवार को टूर्नामेंट की पूर्व फुटबॉलरों की मौजूदगी में प्रबंध समिति की आयोजित बैठक में भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में आयोजित होने वाले फुटबॉल महासंग्राम के कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। 25 दिसंबर को उदघाटन मैच शाहजहांपुर बरेली मंडल तथा लखनऊ की टीमों के बीच खेला जायेगा।

एम एस वीं इंटर कालेज कालपी में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारियां देते हुये विधालय के प्रबंधक एवं टूर्नामेंट के संरक्षक डॉ नरेश मैहर तथा समिति के अध्यक्ष जगजीवन अहिरवार ने बताया कि बुंदेलखंड बॉर्डर फुटबॉल क्लब कालपी के तत्वाधान में छठवां राज्य स्तरीय फुटबॉल महासंग्राम का आयोजन 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक किया जायेगा। टूर्नामेंट में क्रीड़ा विभाग में पंजीकृत टीमों कानपुर, शाहजहांपुर, लखीमपुर, लखनऊ स्पोर्ट्स, मऊनाथ भोजन, झांसी रेलवे , बुंदेलखंड बार्डर कालपी सहित विभिन्न जगह की टीम तथा मशहूर खिलाड़ी मैदान में अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे। फुटवाल टूर्नामेंट कार्यक्रम के संयोजक नगर पालिका परिषद कालपी के पूर्व अध्यक्ष प्रतिनिधि जगजीवन अहिरवार ने बताया कि उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ के द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन बुंदेलखंड बॉर्डर फुटबॉल क्लब कालपी के द्वारा प्रत्येक वर्ष फुटबॉल महासंग्राम का आयोजन किया जाता है। इस साल भी एम सी इंटर कॉलेज के ग्राउंड में 25 दिसंबर को टूर्नामेंट का उद्घाटन किया जाएगा। 29 दिसंबर को फाइनल मैच खेला जाएगा। संस्था के सदस्यों की मौजूदगी में आयोजित बैठक में फुटबॉल महासंग्राम की तैयारियों को लेकर के अंतिम रूप दिया गया। फुटबॉल महासंग्राम मैं हिस्सा लेने के लिए तमाम विख्यात टीमों की सहमति मिल चुकी है। फुटबॉल मैच के उद्घाटन तथा समापन समारोह के लिए जनप्रतिनिधियों तथा उच्च अधिकारियों से संपर्क भी किया जा रहा है। जगजीवन अहिरवार के मुताबिक कालपी में फुटबॉल मैच को लेकर मैदान को सजाया गया है। जनता की भावनाओं के अनुरूप इस वर्ष भी 6 वां राज्य स्तरीय फुटबॉल संग्राम बहुत ही विशाल स्तर पर संपन्न कराया जाएगा। टूर्नामेंट को दृष्टिगत रखते हुए एम एस वीं इंटर कॉलेज के ग्राउंड में व्यापक सजावट की गई है। वही पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जायेंगे।

बारिश के साथ पूरे दिन धूप न निकलने के कारण ठिठुरन बढ़ी

■ जालौन-उरई

तापमान लगातार नीचे जा रहा है। तापमान खिसक कर 8 डिग्री सेल्सियस तक आ पहुंचा गया है तथा शीत लहर चल रही है। मंगलवार को बारिश के साथ पूरे दिन धूप न निकलने के कारण ठिठुरन बढती ही जा रही है। सर्दियों के शुरू होने के बाद भी नगर व ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गयी है। अलाव की कम्बल के अभाव निर्धन लोगों शीत लहर में ठिठुरने के लिए मजबूर है।

निर्धन बेसहारा लोगों के साथ राहगीरों को ठंड से बचाव प्रशासन द्वारा अलाव जलवाये जा रहे हैं किन्तु उनकी संख्या बहुत कम है। इसके साथ ही प्रशासन के साथ धनवान लोगों द्वारा लोगों का निशुल्क कम्बल का वितरण किया जाता है। सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। तापमान 8 डिग्री तक पहुंच गया है तथा शीत लहर चल रही है। मंगलवार को सुबह बारिश हो गयी। बारिश होने के साथ पूरे दिन धूप नहीं निकली जिसके चलते ठिठुरन बढ़ गयी है। सर्दी में लोग ठिठुरने के लिए मजबूर है। इसके बाद भी अभी तक न तो प्रशासन ने नगर व ग्रामीण क्षेत्र में निर्धन बेसहारा लोगों को कम्बल बांटना शुरू किया है और न ही अलाव जलाना शुरू किया है। हालांकि नगर पालिका परिषद द्वारा कार्यालय परिसर में खुले आसमान के नीचे यापन करने वालों के लिए रैन बसेरा बना दिया है। इसमें आने वाले लोगों को ठहरने की उचित व्यवस्था कर दी गयी है। बाजार में अलाव की व्यवस्था न होने के कारण दुकानदारों के साथ बाजार आने वाले ग्रामीण भी ठंड से ठिठुरने को मजबूर हैं। समाजसेवी रहीस नाना, सुबोध प्रजापति, अखिलेश लाक्षाकार, गोपाल शरण मिश्रा, सुनील त्रिपाठी, प्रदीप परिहार कक्कू ने जिलाधिकारी से नगर व ग्रामीण क्षेत्र में अलाव जलवाने व कम्बल वितरित कराने की मांग की है।

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय की 163 वीं जयंती।

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी 100वीं जयंती पर सत्याग्रह रिसर्च फाउंडेशन, मदर ताहिरा चैरिटेबल ट्रस्ट ने सरकार से पश्चिम चंपारण में विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की पुन: की मांग।

चंपारण। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय की 163वीं जयंती एवं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी 100वीं जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने सरकार से पुनः मांग करते हुए कहा कि बेतिया पश्चिम चंपारण में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक सह चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय के सम्मान में बेतिया पश्चिम चंपारण में विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण किया जाए। इस अवसर पर अंतरराष्ट्रीय शांति राजदूत सह सचिव सत्याग्रह रिसर्च फाउंडेशन डॉ एजाज अहमद अधिवक्ता ,डॉ शाहनवाज अली, डॉ अमित कुमार लोहिया वरिष्ठ पत्रकार सह संस्थापक मदर ताहिरा चैरिटेबल ट्रस्ट डॉ अमानुल हक ने संयुक्त रूप से कहा कि पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म आज ही के दिन 25 दिसंबर 1861 को हुआ था। वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया था। पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधार, मातृभाषा और भारत माता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले इस महान व्यक्ति द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में उनका विजन ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षित कर देश की सेवा के लिए तैयार करना था

जो देश का नाम रोशन कर सकें। मालवीय जी सत्य, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, देशभक्ति और आत्मत्याग में अद्वितीय थे। वे अपने व्यवहार में हमेशा मृदुभाषी रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 100वी वर्ष पूर्व 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। वे एक भारतीय राजनीतिज्ञ और कवि थे। जिन्होंने भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में तीन बार कार्य किया, पहली बार 1996 में 13 दिनों की अवधि के लिए चुने गए, फिर 1998 से 1999 तक 13 महीने की अवधि के लिए, उसके बाद 1999 से 2004 तक पूर्ण कार्यकाल के लिए।

बिजली के शार्ट सर्किट से घर में लगी आग

15 हजार रुपए नकद व घर गृहस्थी का सामान जल कर राख

■ जालौन-उरई

बिजली के शार्ट सर्किट से घर में आग लग गयी। आग लगने के कारण घर में रखे 15 हजार रुपए नकद व घर गृहस्थी का सामान जल कर राख हो गया है। पीड़ित ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी है।

कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अलाईपुरा निवासी रमजानी मंसूरी पुत्र लल्लू खां मंगलवार को खेत पर गये थे। घर पर उनकी पत्नी सोनी व चार वर्षीय बेटी शादिया व दो वर्षीय दुवा घर पर थी। सुबह करीब 11 बजे मां बेटियों को लेकर काम में व्यस्त थी। इसी दौरान बिजली के शार्ट सर्किट से घर में आग लग गयी। आग लगने के कारण घर में रखे 15 हजार रुपए नकद व फ्रिज, कूलर, एलईडी टीवी, बैड, पंखा के साथ घर गृहस्थी का सामान जल गया है। आग को बुझाने का आसपास के लोगों ने प्रयास किया किन्तु तब तक लगभग ढाई लाख का सामान जल कर खराब हो गया। आग लगने के कारण घर गृहस्थी का सामान जलने के कारण पीड़ित परिवार परेशान हैं तथा उसके सामने फिलहाल जीवन यापन की समस्या पैदा हो गयी है। पीड़ित ने आग लगने के कारण हुई क्षति की सूचना कोतवाली पुलिस व लेखपाल को दी है। आग से हुए नुकसान व घर के भरण-पोषण के लिए आर्थिक मदद दिलाये जाने की मांग की है।

बद्रीप्रसाद महाविद्यालय मे दूसरे दिन कई प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन

■ कोंच

सेठ बद्री प्रसाद ग्रुप ऑफ कालेज में युवा महोत्सव और वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं के दूसरे दिन मंगलवार को कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी।

खेलकूद प्रतियोगिताओं के दूसरे दिन बालिका वर्ग में कुश्ती प्रतियोगिता हुई जिसमें बीटीसी की छात्रा जाह्नवी सोनी ने जीत हासिल की और अपूर्वा पटेल दूसरे स्थान पर रही। कुश्ती बालक वर्ग में ध्रुव सिंह गुर्जर ने मोहित पाल को पराजित कर दिया। गोला फेंक बालिका वर्ग में अपूर्वा पटेल ने प्रथम और कु.नितिन ने द्वितीय स्थान हासिल किया। खो खो बालिका वर्ग में सुनाया स्कूल की टीम ने बद्री प्रसाद कॉलिज की टीम को हरा दिया। कबड्डी फाइनल मैच बालक वर्ग में बद्री प्रसाद कालेज की टीम ने आईटीआई बद्री प्रसाद की टीम को पराजित किया। 100 मी.दौड़ बालिका वर्ग में सुनाया कि छात्रा ज्योति ने प्रथम और मेघा व कु.नितिन ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान हासिल किया। तृतीय स्थान पर नव्या रही। वहीं 2 किमी मैराथन दौड़ की शुरुआत समीपस्थ गाँव जुझारपुरा से कॉलिज तक हुई जिसमें बद्री प्रसाद कालेज के छात्र ध्रुव गुर्जर ने प्रथम, सामी इंटर कॉलिज के शिवम पाल ने द्वितीय और बद्री प्रसाद कालेज के ही संजय ने तृतीय स्थान हासिल किया। रैफरी और निर्णायक की भूमिका में विनय झा, संतोष और वीरेंद्र रहे। संचालन अमन सक्सेना ने किया। कॉलिज के डायरेक्टर आशुतोष हूंका एवं प्राचार्या डॉ सावित्री गुप्ता ने सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए आशीर्वाद प्रदान किया। प्रतियोगिताओं की व्यवस्थाओं में कॉर्डिनेटर कन्हैया नीखर, प्रभारी प्राचार्य बृजेंद्र सिंह, मनोज श्रीवास्तव, प्रतियोगिता संयोजक डॉ सरताज खान, सह संयोजक राघवेन्द्र निरंजन, इशांत सिंह, संतोष, सचिन गुर्जर आदि रहे।

कच्ची शराब सहित एक को पकड़ा

कोंच। कोतवाली की खेड़ा चौकी प्रभारी संतराम कुशवाहा ने हमराही सिपाही दीपक कुमार व महिला सिपाही कुमकुम के साथ मिलकर बीती रात क्षेत्र भ्रमण के दौरान महेशपुरा रोड स्थित परती की जगह से राजसखी पत्नी दीपक निवासी ग्राम बमरौली थाना मोंठ जनपद झांसी, हाल निवासी कबूतरा डेरा ग्राम चांदनी कोंच को अवैध 10 ली. कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा उक्त महिला के खिलाफ आबकारी एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है।

ससुर की बाइक में दामाद ने लगा दी आग

■ कोंच

दामाद ने ससुराल में घर के बाहर खड़ी ससुर की बाइक में आग लगा दी।जानकारी के अनुसार थाना रेंदर क्षेत्र के ग्राम करहियापुर निवासी वीरेंद्र सिंह गुर्जर नगर के मुहल्ला नया पटेलनगर में बाबू पैलेस वाली गली में विजय सिंह कुशवाहा के मकान में किराये से रहते है। उनकी पुत्री वर्षा की शादी झांसी जिले के लकारा गाँव निवासी राघव सिंह के साथ करीब 14 साल पहले हुई थी लेकिन बीते कुछ माह से ससुरालीजन उसको प्रताड़ित कर रहे थे और कुछ दिन पहले उसके साथ मारपीट की गयी थी। मारपीट से परेशान होकर वर्षा अपने पिता के पास यहां मायके आ गई थी। सोमवार की देर रात राघव अपने एक अन्य साथी के साथ अपनी ससुराल पहुंचा और घर के आसपास कुछ देर तक टहलता रहा जिसके बाद उसने घर के दरवाजे पर खड़ी ससुर की बाइक का पेट्रोल निकाल कर बाइक पर छिड़क दिया और माचिस की तीली जलाकर आग लगाकर मौके से भाग गया। आग की चपेट में आने से बाइक का जैसे ही तेज आवाज के साथ टायर फटा तो घबराए आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। बाइक जलती देख लोगों ने समरसेबिल चालू कर आग बुझाई लेकिन तब तक बाइक जलकर खाक हो चुकी थी। सूचना पर पहुंची यूपी 112 पीआरबी व कोतवाली पुलिस ने जांच की। घटना को लेकर वीरेंद्र सिंह ने कोतवाली पुलिस से कार्यवाही किए जाने की मांग की है।

एसडीएम ने परिषदीय स्कूलो का निरीक्षण किया

■ कोंच

परिषदीय स्कूलों का उपजिलाधिकारी ने निरीक्षण किया जहाँ व्यवस्थायें खराब मिली। एसडीएम ज्योति सिंह ने मल्टि स्टोरी विद्यालय कांशीराम कालौनी सहित अन्य कई स्कूलों का निरीक्षण किया जहाँ उन्हें साफ़ सफ़ाई नहीं मिली और शौचालय भी गंदे पाए गए।

दिव्यांग बच्चों के लिए न तो रैंप बने थे और न ही उनके लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था थी। कक्षों से लेकर फर्नीचर की भी व्यवस्था संतोषजनक नहीं पायी गयी। मौके पर पंजीकृत बच्चों की संख्या बेहद कम मिली और शिक्षकों की भी उपस्थिति नहीं मिली। मल्टि स्टोरी स्कूल में शिक्षकों के स्थान पर 2 शिक्षा मित्र ही मौजूद मिले। एसडीएम ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि स्कूलों में पंजीकृत बच्चों की उपस्थिति बढ़ायी जाये और उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाये। मिड डे मील भोजन की गुणवत्ता उच्च रखी जाये।

सभी बच्चे निर्धारित ड्रेस और स्वेटर पहन कर ही स्कूल आयें। साफ़ सफ़ाई व्यवस्था दुरुस्त रखें और रैंप के साथ ही शौचालय की स्थिति बेहतर करें। एसडीएम ने व्यवस्था सुधारने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी और नगर पालिका ईओ को पत्र जारी कर निर्देश दिए।

पत्रकार के पिता की पुण्यतिथि पर गरीबों को कराया भोजन

■ कोंच

डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के संरक्षक वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तमदास रिछारिया के पिता और साप्ताहिक रिछारिया दर्शन के संस्थापक/प्रधान संपादक रहे स्व. कृष्णगोपाल रिछारिया को उनकी 17 वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए उनके कृत कार्यों को याद किया गया। दरिद्र नारायण सेवा समिति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में अधिकारियों, नगर के तमाम समाजसेवियों और पत्रकारों ने उन्हें कलम का धनी पत्रकार निरुपित करते हुए कहा कि स्व. रिछारिया ने गरीबों और किसानों की समस्याओं को लेकर हमेशा उनकी आवाज अखबार के माध्यम से बुलंद की, उन्हें आशु कवि के रूप में भी जाना जाता है।दरिद्र नारायण सेवा समिति के तत्वाधान में दिवंगत पत्रकार एवं साहित्यकार कृष्णगोपाल रिछारिया की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन वरिष्ठ पत्रकार अंजनी श्रीवास्तव की अध्यक्षता, एसडीएम ज्योति सिंह के मुख्य आतिथ्य एवं सीओ डॉ. देवेंद्र कुमार पचौरी, तहसीलदार जितेंद्र सिंह पटेल, प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार

राय एवं डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब अध्यक्ष संजय सोनी के विशिष्ट आतिथ्य में किया गया।

श्रद्धांजलि सभा में मौजूद नगर के समाजसेवियों एवं पत्रकारों ने भावसिक्त श्रद्धाप्रसून अर्पित करते हुए उन्हें एक श्रेष्ठ कलमकार बताया। मुख्य अतिथि एसडीएम ने कहा, पत्रकारिता एक मिशन है। पत्रकार समाज के दबे कुचलों की आवाज बन कर शासन प्रशासन से उन्हें न्याय दिलाने की जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। सीओ ने कहा, एक पत्रकार संवेदनशील रह कर जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने का काम निरपेक्ष भाव से करता है। पत्रकारिता के श्रेष्ठ मानदंडों को अपना कर ही एक दिवंगत पत्रकार को सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। अन्य अतिथियों ने भी कहा, पीत पत्रकारिता को प्रश्रय न देकर अपनी कलम का उपयोग सच्चाई का उद्घाटन करने में लगाएं। संचालन समिति के संयोजक कढोरेलाल यादव बाबूजी ने किया। इस अवसर पर स्व. रिछारिया के परिजनों बेटे पुरुषोत्तमदास, श्याममोहन, राममोहन, अनिलकुमार, पौत्र अभिषेक, ऋषभ, अमन, कपिल, कुशाग्र एवं प्रपौत्र अक्षत ने जरूरतमंदों को भोजन कराया। इस दौरान सेठ नासिर, हरिश्चंद्र तिवारी, रामप्रकाश यादव, तरुण निरंजन, विवेक द्विवेदी, रविकांत द्विवेदी, जयप्रकाश रावत, रंजन गोस्वामी, सुंदरम सोनी, नवीन कुशवाहा, राहुल राठौर, राजीव अग्रवाल आदि उपस्थित रहे।

एसडीएम ज्योति सिंह ने आश्रम में नित्यप्रति भोजन करने आने वाले लोगों को यथायोग्य पेंशन दिलाने की जरूरत को समझते हुए सदर लेखपाल अखिलेश को निर्देश दिए कि यहां शिविर लगाकर सभी की औपचारिकताएं पूरी कराएं और जो जिस पेंशन की परिधि में आता हो उस तरह की पेंशन बनवाने का काम प्राथमिकता के आधार पर करें। सर्दी के मौसम को देखते हुए उन्होंने इन जरूरतमंदों को सरकारी कंबल देने के भी निर्देश लेखपाल को दिए हैं।

प्रदर्शनकारियों ने क्रिसमस ट्री को जलाने के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया

सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे के बाद डर के साए में मन रहा क्रिसमस

- देश में करीब तीन लाख क्रिश्चियन आबादी है
- इस्लामी विद्रोहियों के शासन को लेकर लोगों में डर का भाव

एजेंसी, दमिश्क

सीरिया में तख्तापलट के बाद ही पहला त्योहार क्रिसमस आया है। इस त्योहार से पहले ईसाई धर्म की चिंताएं भी बढ़ गई थीं। लोगों को डर था कि कट्टरपंथी संगठन के दमिश्क पर कब्जे के बाद क्रिसमस कैसे मनाएंगे। अब आपको बताते हैं वहां त्योहार के दौरान कैसा माहौल रहा। राजधानी में ईसाई समुदाय के लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उनके बीच क्रिसमस ट्री को जलाए जाने को लेकर काफी आक्रोश रहा। वहीं दमिश्क के चर्च में

लगभग 500 श्रद्धालुओं के बीच क्रिसमस से पहले लोगों ने भजन गए, लोगों का कहना है कि उन्होंने कई सालों बाद राहत की सांस ली।

लोगों में डर का माहौल

सारा लतीफा नाम की एक महिला ने बताया कि पहले उन्हें डर था कि बशर अल-असद से सत्ता छिनने और विद्रोही इस्लामी गुटों के शासन के आने के बाद क्रिसमस कैसे मनाया जाएगा। उनका कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में एक साथ आना और खुशी से प्रार्थना करना आसान नहीं था, लेकिन भगवान का शुक्र है कि हमने ऐसा किया। एक चर्च में मंगलवार को बिना किसी रोकटोक के जुटी भीड़ ने उनके इस डर को कम किया। वहीं सीरिया के नवनियुक्त विदेश मंत्री असद हसन अल-शिबानी ने मंगलवार को ईरान से कहा कि वह सीरिया में अराजकता न फैलाए बल्कि सीरियाई लोगों की इच्छा और देश की संप्रभुता का सम्मान करे। एक्स पर एक पोस्ट में, शिबानी ने कहा, 'ईरान को सीरियाई लोगों की इच्छा और देश की संप्रभुता और सुरक्षा का सम्मान करना चाहिए। हम उन्हें सीरिया में अराजकता न फैलाने से चेतावनी देते हैं।

क्रिसमस ट्री जलाया गया

वहीं सीरिया की राजधानी दमिश्क में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने क्रिसमस ट्री को जलाने के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें मध्य सीरिया के ईसाई बहुल शहर सुकायलाबिया में क्रिसमस ट्री को जलते हुए देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो में दिखाया गया है कि हुड पहने लड़ाके हमा के पास ईसाई-बहुल शहर सुकायलाबिया में पेड़ में आग लगा रहे हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स युद्ध निगरानीकर्ता ने कहा कि वे विदेशी जिहादी थे। सीरिया के विजयी इस्लामी समूह हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) के एक स्थानीय धार्मिक नेता ने आगजनी की निंदा की।

तुर्किए में बड़ा हादसा, फैक्ट्री में जोरदार धमाका

इस्तांबुल। तुर्किए में एक फैक्ट्री में हुए जोरदार धमाके में कम से कम 12 लोगों की मौत की खबर है। यह धमाका विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, तुर्किए के बालीकेसिर प्रांत में स्थित फैक्ट्री में धमाका हुआ। प्रांत के गवर्नर इस्माइल उस्ताउग्लु ने बताया कि विस्फोट बालीकेसिर प्रांत के कारेसी इलाके में स्थित फैक्ट्री में हुआ, जिसमें 12 नागरिकों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हुए। जिस फैक्ट्री में धमाका हुआ, उसका नाम ZSR एम्युनिशन प्रोडक्शन फैक्ट्री है। अभी धमाके की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। हादसे की भयावहता को देखते हुए मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है।

डी.पी.आर.के. की खुश माताएं

कोरिया। डी.पी.आर.के. के एक प्रमुख समाचार-पत्र रोडोंग सिनमुन के 1 सितम्बर के अंक में "547वें ट्रिपलेट्स ने प्योंगयांग मैटरनिटी हॉस्पिटल छोड़ा" शीर्षक से एक लेख प्रकाशित हुआ। संक्षिप्त लेख का एक भाग इस प्रकार हैः मेडिकल स्टाफ द्वारा गर्मजोशी से विदाई दिए जाने के बीच 31 अगस्त को ट्रिपलेट्स (दो लड़कियां और एक लड़का) अस्पताल से विदा हुए। शिशुओं की मां जोंग उन हुई, उत्तरी ह्वांगहे प्रांत के फ्योंगसान काउंटी शहर में रहती हैं। मार्च में जैसे ही पता चला कि वह तीन बच्चों की मां बनने वाली है, तो जोंग को प्योंगयांग मैटरनिटी अस्पताल रेफर कर दिया गया। जन्म के समय तीनों शिशुओं का वजन क्रमशः 2.03 किग्रा, 1.62 किग्रा और 2.11 किग्रा था। उन्हें इनक्यूबेटर में रखा गया था। जब वे अस्पताल से बाहर निकले, तो वे सभी स्वस्थ थे, प्रत्येक का वजन 4 किग्रा से अधिक था। राज्य की ओर से शिशुओं और उनकी मां को उपहार स्वरूप सोने की अंगूठियां और चांदी की खंजरें भेंट की गईं। प्रसूति अस्पताल, कभी-कभी हवाई जहाज से। तीन बच्चों को अस्पताल में तब तक पाला जाता है जब तक उनका वजन सामान्य नहीं हो जाता। अस्पताल से निकलने के बाद भी, वे शिशु गृहों और अनाथालयों में सरकारी खर्च पर एक डॉक्टर और एक नर्स की विशेष देखभाल में आते हैं और उन्हें रहने के लिए उचित परिस्थितियाँ प्रदान की जाती हैं। राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं केवल तीन बच्चों की माताओं को ही नहीं दी जाती हैं। जुलाई 1980 में उद्घाटन किया गया, प्योंगयांग मातृत्व अस्पताल महिलाओं के लिए एक आधुनिक, व्यापक चिकित्सा केंद्र है। कोरियाई महिलाएं अस्पताल को अपने "माता-पिता का घर" कहती हैं। जब से इसे सेवा के लिए खोला गया है, तब से बड़ी संख्या में महिलाओं को कई तरह की चिकित्सा सेवाएँ मिली हैं। नर्सिंग माताओं और अन्य सभी रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सेवा दी जाती है। इसके अलावा, नर्सिंग माताओं को टॉनिक, दवाइयाँ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली मौजूद है, जो सभी सरकारी खर्च पर उपलब्ध है। लगभग दस साल पहले महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए उच्च-स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित प्योंगयांग मातृत्व अस्पताल का ब्रेस्ट ट्यूमर संस्थान बनाया गया था। हाल ही में देश ने कई बच्चों वाले परिवारों को चिकित्सा सेवा सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं में तरजीही उपचार प्रदान करने की प्रणाली स्थापित की है। कई बच्चों वाली महिलाओं को उच्च सरकारी प्रशंसा पत्र दिए जाते हैं। उन लोगों को सम्मान की उपाधियाँ दी जाती हैं जिन्होंने अपने बच्चों का पालन-पोषण बेहतरीन तरीके से किया है।

Happy Mothers in DPRK

korea. The September 1 issue of Rodong Sinmun, a major newspaper of the DPRK, carried an article titled "547th Triplets Leave Pyongyang Maternity Hospital." The brief article runs in part: The triplets (two girls and one boy) left the hospital on August 31 amid a warm send-off from the medical staff. Jong Un Hui, the mother of the babies, lives in Phyongsan County town in North Hwanghae Province. As soon as she was diagnosed in March as being pregnant with triplets, Jong was referred to the Pyongyang Maternity Hospital.At birth the triplets weighed 2.03kg, 1.62kg and 2.11kg respectively. They were in care in incubators. When they left the hospital, they were all in good health, each weighing more than 4kg. And the babies and their mother were presented with gold rings and silver daggers by the state as gifts.

The birth of triplets is regarded in the DPRK as a good sign of national prosperity and special measures are taken for them. When women are confirmed as being pregnant with triplets, they are promptly delivered to the maternity hospital, sometimes by airplanes. Triplets are brought up in the hospital until their weight reaches to normal. Even after they leave the hospital, they come under the exclusive care of a doctor and a nurse at state expense at baby homes and orphanages and are provided with adequate living conditions. State benefits are not given to the mothers of triplets alone. Inaugurated in July 1980, the Pyongyang Maternity Hospital is a modern, comprehensive medical centre for women. Korean women call the hospital their "parents' home". Since it was opened to service, a large number of women have received a wide variety of medical services. Free medical service is given to the nursing mothers and all other inpatients. In addition, a well-arranged system is in place to provide nursing mothers with tonics, medicines and nutritional foods, all at state expense. About ten years ago the Breast Tumour Institute of the Pyongyang Maternity Hospital equipped with high-end facilities was built to promote women's health. Recently, the country has established a system of providing the families with many children with preferential treatment in various aspects of life including medical service. Women with many children are awarded high official commendations. Honour titles are conferred on those who have brought up their children admirably.

केजरीवाल ने जुमलों की बड़ी लकीर खींचना शुरू कर दिया

इस समय दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है तो केजरीवाल ने 24 घंटे पानी का जुमला उछाल दिया।

दो इंडिया गेट से अजय सेतिया अरविंद केजरीवाल जैसा नटवर लाल पैदा ही नहीं हुआ। उनमें एक खासियत है कि वह संकट में फंसने वाले मुद्दों को पहले ही भांप लेते हैं। फिर उन मुद्दों पर जनता को मूर्ख बनाने का उपाय सोचने लगते हैं। अब उन्हें पता है कि दिल्ली में पेयजल और यमुना की सफाई बड़े मुद्दे बनने वाले हैं तो उन्होंने दिल्ली को 24 घंटे शुद्ध पेयजल का जुमला उछाल दिया है। इसी तरह 11 साल पहले उन्होंने यमुना की सफाई का जुमला उछाला था। यमुना के किनारों को सैरगाह बनाने का वादा किया था। इस समय दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है तो उन्होंने 24 घंटे पानी का जुमला उछाल दिया। दिल्ली में बमुश्किल एक-दो घंटों के लिए पानी सप्लाई होता है। कई जगह तो सप्लाई ही नहीं होता, वहां टैंकरों से पानी सप्लाई होता है। जहां जहां पानी पाईप लाईन से सप्लाई होता है, वहां पाश कॉलोनियों को छोड़ दें तो अधिकतर कॉलोनियों में जगह-जगह पर सीवर की लाइनें टूटी हुई है और पेयजल की लाइनें भी लीक होती रहती हैं। दोनों का पानी मिल जाता है, लोगों को घरों में सीवर युक्त पानी सप्लाई हो जाता है। हर रोज किसी न किसी मोहल्ले में यह समस्या हो जाती है। लोग कह रहे हैं कि खुद तो अपने शीशमहल में मिनरल वाटर का सिस्टम लगा लिया, लेकिन दिल्ली की एक तिहाई जनता को सीवर का बदबूदार काला पानी सप्लाई हो रहा है। केजरीवाल ने मुफ्त पानी बिजली का देशभर में ढिंढोरा पीट दिया, लेकिन लोग यूट्यूबरों को हर महीने आने वाले बिल दिखा रहे हैं, और नल से निकलता कोका कोला के रंग का पानी भी। यह भी बता रहे हैं कि गर्मियों में 8-8 घंटे बिजली नहीं आती। केजरीवाल जब 24 घंटे पानी सप्लाई करने की डींगें हांक रहे थे तो उनके बगल में खड़ी आतिशी मार्लेना दांत फाड़ रही थी। यह 2024 तक यमुना साफ करने और यमुना में डुबकी लगाने जैसा ही वादा है। मूर्ख से मूर्ख भी जानता है कि दिल्ली के पास पानी ही नहीं है। मई जून में जब दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचा था तो आतिशी मार्लेना यह कहते हुए धरने पर बैठ गई थी कि हरियाणा सरकारपानी नहीं दे रही। दिल्ली हरियाणा और उप्र पर निर्भर है। केजरीवाल भांप गए हैं कि जैसे 2003 में मध्यप्रदेश में दिग्विजय सरकार सड़क बिजली पानी पर चली गई थी, उसी तरह इस बार उनकी सरकार के परखचे उड़ेंगे तो केजरीवाल ने मंगलवार को नया ड्रामा शुरू कर दिया। उन्होंने एक घर में घुसकर नल से पानी पी कर इस अभियान की शुरुआत की। वह यह दिखाना चाहते हैं कि दिल्ली में किसी घर में आरओ की भी जरूरत नहीं होगी। एक दिन पहले उन्होंने महिलाओं को 2100 रुपए महीना और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त डायग्नोज योजना का ऐलान किया था। अगले दिन यह पानी का ड्रामा। चुनाव का अभी बिगुल नहीं बजा है, लेकिन केजरीवाल ने अभियान में भाजपा और कांग्रेस दोनों को मात दे दी है। कांग्रेस और भाजपा अभी उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया में ही उलझी हुई है। भाजपा पत्रकार वार्ता और एक्स हेंडल पर उसी तरह आरोप पत्र ही जारी कर रही है, जैसे 10 साल से करती आ रही है। कांग्रेस की न्याय यात्रा भी टाएं-टाएं फिस्स हो चुकी है। महाराष्ट्र के चुनाव के समय कांग्रेस ने ऐलान किया था कि महाराष्ट्र का चुनाव निपटते ही राहुल गांधी खुद दिल्ली में न्याय यात्रा करेंगे। न्याय यात्रा शुरू भी हुई थी, लेकिन बीच में ही बंद हो गई। राहुल गांधी एक दिन भी यात्रा में दिखाई नहीं दिए। ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में करारी हार के बाद राहुल गांधी ने केजरीवाल के सामने घुटने टेक दिए हैं। वैसे ड्रामेबाजी में राहुल गांधी केजरीवाल के भी बाप हैं। केजरीवाल जब नल से पानी पीने का ड्रामा कर रहे थे, ठीक उसी समय राहुल गांधी 30 हजार रुपए की टीशर्ट और तीन लाख के जूते पहन कर एक सब्जी मंडी में सब्जियों के भाव पूछ रहे थे। फिर उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर लिखा कि 40 रुपए किलो वाला लहसुन 400 रुपए किलो बिक रहा है। वैसे राहुल गांधी लहसुन को पहचानते भी हैं या नहीं कह नहीं सकते। राहुल गांधी को तय करना चाहिए कि वह किसानों के साथ है या उपभोक्ताओं के साथ है। क्या वह दिल्ली में महंगाई को मुद्दा बनाना चाहते हैं। जबकि, दिल्ली की जनता के लिए महंगाई से बड़ा मुद्दा पेयजल और सफाई है, जिसमें केजरीवाल पूरी तरफ विफल रहे हैं। दिल्ली की जनता केजरीवाल को चलता करना चाहती है, लेकिन न कांग्रेस दम दिखा रही है, न भाजपा के नेता कोई दम दिखा रहे हैं। भाजपा ने अभी एक भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया, जबकि केजरीवाल सभी 70 उम्मीदवारों का ऐलान करने के बाद अब हर रोज नई-नई रेवड़ी की स्क्रिप्ट लिख कर जनसंपर्क में जुट गए हैं। दिल्ली में भाजपा के साथ कहीं वही न हो जाए, जो महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ हुआ है।

अवैध बांग्लादेशी छात्रों को स्कूलों में प्रवेश नही मिलेगा

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के नामांकन को रोकने के लिए आदेश जारी किया है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के नामांकन को रोकने के लिए सख्त प्रवेश प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने और छात्रों के दस्तावेजों को सत्यापित करने का काम किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत स्कूलों को प्रवेश प्रक्रिया के दौरान बांग्लादेश से अवैध तौर पर आए प्रवासी छात्रों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है।

पांच अरब डॉलर का मामला

परमाणु ऊर्जा संयंत्र मामले में हसीना के विरुद्ध जांच शुरू

- पूर्व पीएम शेख हसीना और उनके परिवार के खिलाफ जांच शुरू कर दी

एजेंसी, ढाका

बांग्लादेश में एक भ्रष्टाचार रोधी समिति ने रूपपुर एटमी ऊर्जा संयंत्र में पांच अरब डॉलर के गबन के आरोपों को लेकर पूर्व पीएम शेख हसीना और उनके परिवार के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण में भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। इसका निर्माण रूस की सरकारी कंपनी रोसातम कर रही है। रूस द्वारा डिजाइन किया गया पहला बांग्लादेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र, रूपपुर बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 160 किलोमीटर पश्चिम में बनाया जा रहा है। 'बीडीन्यूज' की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बारे में हसीना के साथ उनके बेटे सजीब वाजेद जॉय और उनकी भांजी एवं ब्रिटेन की वित्त मंत्री ट्यूलिप सिद्दीक से भी पूछताछ की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि ऊर्जा संयंत्र परियोजना में पांच अरब डॉलर के गबन का आरोप है। रूसी निकाय ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि वह अपनी सभी परियोजनाओं में खुलेपन की नीति पर प्रतिबद्ध है। उसने कहा, रोसाटॉम स्टेट कॉर्पोरेशन रूपपुर एनपीपी परियोजना के कार्यान्वयन में एक पारदर्शी खरीद प्रणाली बनाए रखा है। कॉर्पोरेशन अदालत में अपने हितों और प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए तैयार है।

मणिपुर को दहलाने की कोशिश नाकाम

सुरक्षाबलों ने बरामद किया 3.6 किलोग्राम विस्फोटक

एजेंसी, मणिपुर

भारतीय सेना, असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस ने मंगलवार (24 दिसंबर 2024) को चुराचांदपुर जिले में इंफाल-चुराचांदपुर मार्ग पर एक पुल के नीचे से 3.6 किलोग्राम विस्फोटक, डेटोनेटर और अन्य सामान बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार, उग्रवादी बड़े धमाके की तैयारी में थे। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के लीसांग गांव में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) की मौजूदगी की विशेष खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए स्पीयर कोर के तहत असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस ने एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान टीम को इंफाल-चुराचांदपुर मार्ग पर एक पुल के नीचे से 3.6 किलोग्राम विस्फोटक, डेटोनेटर, कॉर्डटेक्स और अन्य सामान मिला। भारतीय सेना के स्पीयर कोर ने एक्स पर एक पोस्ट में इस बात की जानकारी दी। इससे पहले, भारतीय सेना और मणिपुर पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया और कई स्थानों से 21.5 किलोग्राम वजन के पांच इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) बरामद किए। इसकी जानकारी पीआरओ डिफेंस गुवाहाटी ने मंगलवार को एक विज्ञप्ति में दी।

मिशन से विज्ञानियों को सूर्य के बारे में और अधिक जानने में मदद मिलेगी

सूर्य के सबसे करीब पहुंचकर नासा के पार्कर ने रचा इतिहास

एजेंसी, वाशिंगटन

नासा के अंतरिक्षयान पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सूर्य के बाहरी वातावरण, जिसे कोरोना कहा जाता है , में उड़ान भरकर इतिहास रच दिया। 692,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरते हुए यह कोरोना से डाटा जुटाएगा। जॉन्स हॉपकिन्स एप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी के मिशन संचालन प्रबंधक निक पिंकिन ने कहा,

कोई भी मानव निर्मित वस्तु कभी भी सूर्य के इतने करीब से नहीं गुजरी। इस मिशन से विज्ञानियों को सूर्य के बारे में और अधिक जानने में मदद मिलेगी। चूंकि इस अंतरिक्षयान से संपर्क टूट गया है इसलिए शुक्रवार तक पता लग सकेगा कि यह सूर्य के तापमान को सहन कर पाएगा या नहीं। नासा ने वेबसाइट पर कहा, अंतरिक्ष यान को 1,800 डिग्री फारेनहाइट (982 डिग्री सेल्सियस) तक का तापमान का सामना करना पड़ेगा। 2018 में लांच किए जाने के बाद से पार्कर जांच धीरे-धीरे सूर्य की ओर बढ़ रहा है। सीरिया के प्रमुख अहमद अल-शरा ने मंगलवार को पूर्व विद्रोही गुट के प्रमुखों के साथ एक समझौता किया। इसके तहत सभी विद्रोही गुटों को भंग करने के साथ उन्हें रक्षा मंत्रालय से जोड़ने पर सहमति बनी। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री मोहम्मद अल-बशीर ने कहा था कि जल्द ही मंत्रालय को पूर्व विद्रोही गुटों और बशर अल-असद की सेना से निकले अधिकारियों की नियुक्ति के साथ मजबूत बनाया जाएगा। नए शासकों ने बशर अल-असद को गद्दी से हटाने वाले विद्रोह के प्रमुख मुर्हाफ अबू कसरा को अंतरिम सरकार का रक्षा मंत्री बनाया है।

ग्लोबल साउथ के देशों में बढ़ रहा ब्रिक्स का प्रभाव

चीन ने मंगलवार को कहा कि ग्लोबल साउथ में ब्रिक्स ब्लाक का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि यह एकजुटता और सहयोग को बढ़ावा देने वाला मंच मुख्य मंच बन रहा है। रूस द्वारा ब्रिक्स के नए भागीदार देशों की घोषणा के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि इससे ब्रिक्स सहयोग एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है ।

हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली

अफगानिस्तान के जलालाबाद में भारतीय कांसुलेट पर हमला

नई दिल्ली। अफगानिस्तान के जलालाबाद के बंद हो चुके भारतीय कांसुलेट में एक स्थानीय अफगान कर्मी हमले में घायल हो गया है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि वह इस मामले में अफगानी प्रशासन के संपर्क में हैं। उन्हें इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट का भी इंतजार है। बताया जाता है कि स्थानीय अफगानी कर्मचारी को बंद कांसुलेट की देखरेख के लिए वहां तैनात किए गया है और उस पर जानबूझकर हमला किया गया। लेकिन इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि जलालाबाद स्थित भारतीय कांसुलेट के वर्ष 2020 से बंद होने के बावजूद जून, 2022 से भारतीय तकनीकी टीम काबुल में भारतीय दूतावास में स्थित है। भारतीय दूतावास की यह टीम मानवीय सहायता से लेकर अन्य हालात से निपटने के लिए वहां पर सक्रिय है।

संपादकीय

बंगलादेश की मांग

बंगला देश की यूनुस सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखकर भारत में निर्वासित जीवन बिता रहीं शेख हसीना को वापस बंगलादेश भेजने की मांग की है। जाहिर है, भारत सरकार उसकी यह मांग कभी पूरी नहीं कर सकती। जब-जब भी शेखमुजीबुर्रहमान के परिवार पर संकट आया है, तब-तब भारत ने उनकी मदद की है। बांग्लादेश में इस साल अगस्त में छात्र आंदोलन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा था और उन्होंने भारत में शरण ली थी। तब से वे भारत में ही रह रही हैं। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा है कि हमने भारत सरकार से कहा है कि बांग्लादेश सरकार चाहती है कि शेख हसीना न्यायिक प्रक्रिया के लिए बांग्लादेश वापस आएं। अगर शेख हसीना वापस जाती हैं, तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। उन्हें लंबे समय तक जेल में रखने के साथ ही फांसी की सजा भी दी जा सकती है। भारत और बांग्लादेश की सरकार के बीच साल 2013 में प्रत्यर्पण को लेकर संधि की गई थी। 2013 से भारत के बीच प्रत्यर्पणीय अपराध मामलों में आरोपी या भगोड़े आरोपियों और बंदियों को एक-दूसरे को सौंपने का करार हुआ था। बांग्लादेश सरकार ने कहा है कि इस संधि के तहत वह पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। हालांकि इस प्रत्यर्पण संधि की एक धारा में कहा गया है कि प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोप अगर राजनीतिक प्रकृति के हों तो अनुरोध खारिज किया जा सकता है। जाहिर है कि बंगलादेश ने जो आरोप शेख हसीना पर लगाए हैं, वे राजनीति से प्रेरित हैं इसलिए शेख हसीना के मामले में प्रत्यर्पण संधि लागू नहीं होती है। हालांकि बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ सामूहिक हत्या, लूटपाट और जालसाजी के आरोप लगाए हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के एक आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट में उनपर लोगों को गायब करने का भी आरोप लगाया है। 'अन्फोल्डिंग द ट्रूथ' नाम की इस रिपोर्ट में शेख हसीना पर आरोप लगाए गए थे कि वह बांग्लादेश के कुछ अहम शख्सियतों को गायब करवा रही हैं। प्रधानमंत्री रहते शेख हसीना पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। उन पर ये भी आरोप हैं कि उन्होंने विपक्षी नेताओं को जेल में ठूंस कर चुनाव लड़ा और अपनी मनमानी की। चुनाव आयोग पर धांधली करने के आरोप लगे थे। भले ही शेख हसीना पर कुछ भी आरोप लगे हों, लेकिन भारत सरकार उनका प्रत्यर्पण नहीं करेगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है।

निर्वासित बंगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पर कुछ भी आरोप लगे हों, लेकिन भारत सरकार उनका प्रत्यर्पण नहीं करेगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है।

पाठकवाणी

साइबर क्राइम का गढ़ झारखंड

ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाता, जब साइबर क्राइम से जुड़े मामले में विभिन्न राज्यों की पुलिस साइबर अपराधियों की तलाश में झारखंड राज्य के जामताड़ा, देवघर, गिरीडीह, दुमका आदि जिला नहीं पहुंचती। कभी-कभी तो पुलिस को इन अपराधियों को बिना गिरफ्तार किए ही लौट जाना पड़ता है, क्योंकि ये शातिर अपराधी गिरफ्तारी के डर से घरों में ज्यादा समय उपलब्ध ही नहीं रहता है। ज्यादतर जंगलों में रह कर अपनी गतिविधियां चलाते हैं। गिरफ्तारी नहीं हो पाने का एक मुख्य कारण यह भी है कि लोकल पुलिस और इन अपराधियों के बीच चोली-दामन का साथ रहता है। बिना पुलिस के सहयोग से ये अपना धंधा नहीं चला सकते। साइबर क्राइम से पैसे कमाने की बेचैनी अब प्रोफेशनल धंधा बन चुकी है। पढ़े-लिखे युवाओं की संलिप्तता इस तरह के अपराध में बढ़ चुकी है। हैरान करने वाली बात यह है कि अब महिलाएं भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल होकर साइबर ठगी कर रहीं है। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, जो साइबर क्राइम को अपराध नहीं समझते, बल्कि एक जरिया मानते हैं पैसे कमाने का। बैंक द्वारा लगातार मैसेज, कॉल के माध्यम से लोगों को सुचित किया जाता है कि अपना डाटा किसी को नहीं बतायें, फिर भी लोग धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं। लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक यह अपराध रूकना मुश्किल है।

-संदीप कुमार, मधुपुर (झारखंड)

कुछ खास

वोटों के लिए भीमराव आंबेडकर का नाम इस्तेमाल करना आज कल एक फैशन हो गया है। अमित शाह ने संसद में उनका अपमान किया, फिर राहुल-प्रियंका ने हमारी नीली क्रांति को फैशन शो बनाया। उपेक्षितों के आत्म-सम्मान के लिए बीएसपी का मिशन जारी रहेगा।

-आकाश आनंद, बसपा नेता

आज का ट्वीट

''वो 'घटिया कवि' पहले हिंदू-मुस्लिम भाईचारा बेचता था। कला की पहली शर्त है बेहतर इंसानियत। एक घटिया इंसान, बढ़िया कवि कभी नहीं हो सकता। शर्म तो आती होगी?''

-आरफा खानम शेरवानी

सामयिक

एस जयशंकर की वाशिंगटन यात्रा

शाहीन सबा

अमेरिका की सत्ता में डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन, उन्हें नई दिल्ली के महत्व का अहसास है। 2014 से भारत की कमान नरेन्द्र मोदी के हाथों में है। इस बीच वर्ल्ड आर्डर में जबरदस्त बदलाव हुए हैं। हमारे आस-पड़ोस में कई देशों में सत्ता बदल गई। कई पड़ोसी देशों में बड़ी राजनीतिक घटनाएं घटी हैं परंतु नई दिल्ली में विश्वसनीय लीडरशिप कायम है।

डोनाल्ड ट्रंप की वापसी में एक महीने से भी कम समय बचा है । इस बीच कई ऐसी घटनाएं घट रही हैं, जिन्होंने ध्यान आकृष्ट किया है। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पाँच-छह दिन पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बीजिंग की यात्रा करके लौटे हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री हाल में ढाका गए थे, जहां उनकी भेंट अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से हुई है । छह दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर रवाना हो गए हैं, जहां उनकी अपने समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से अहम वार्ता होने होने वाली है। यह सारी मुलाकातें कुछ घटनाओं के बीच हो रही हैं, इसलिए इनका महत्व बढ़ जाता है। यूक्रेन ने रूस के कजान शहर पर ड्रोन अटैक किए हैं। देर स्वेर रूस की ओर से प्रतिक्रिया संभावित है। इजरायल-हमास-हिजबुल्ला-ईरान के बीच संघर्ष जारी ही है। कुछ घटनाएं पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी घट रही हैं। हाल में अमेरिका ने पाकिस्तान पर लंबी दूरी की मिसाइलें बनाने का गंभीर आरोप लगाते हुए चार कंपनियों को ब्लैक लिस्ट भी किया है। चूकि बाइडेन शासन का अंत हो रहा है और ट्रंप की टीम टेकओवर करने जा रही है, इसलिए भी भारतीय विदेश मंत्री की वाशिंगटन यात्रा को बेहद अहम जा रहा है।

जब से बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ है और मोहम्मद यूनुस की अगुआई में एक अस्थायी व्यवस्था ने कमान संभाली है, तब से वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं, ईसाइयों और दूसरे समुदायों पर हमले हो रहे हैं, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन पर सत्ता पर काबिज लोगों का कहना है कि भारत में गलत तरीके से चीजें पेश की जा रही हैं। जो शेख हसीना को सपोर्ट करते रहे हैं, यह हमले उन पर हुए हैं। यह तर्क वैसे गले से नीचे उतरने वाले नहीं हैं परंतु यदि मान भी लें तो कोई वर्ग, समुदाय अथवा संगठन आदि किसी दल विशेष को समर्थन और वोट देते हैं तो दूसरे दल से जुड़े लोगों को उनकी जान लेने का हक कैसे मिल जाता है। हाल में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री की ढाका यात्रा दरअसल, इसी संदर्भ में थी । भारत की गहरी चिंताओं से बांग्लादेश के मौजूदा निजाम को न केवल अवगत कराया गया बल्कि इसके संभावित दुष्प्रभावों से भी आगाह किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतने के उपरांत अपने संबोधन में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि इन्हें तुरंत रोके जाने की जरूरत है। भारत भी संयम का परिचय दे रहा है और ट्रंप के कमान संभालने की प्रतीक्षा कर रहा है।

जब जयशंकर वाशिंगटन रवाना हो रहे हैं, ठीक उसी समय अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन और मोहम्मद यूनुस के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा भी सामने आ रहा है। यूनुस चूकि डेमोक्रेट्स के प्रिय हैं और शेख हसीना की जगह उन्हें सत्ता में लाने वाले भी वही माने जा रहे हैं, इसलिए सुलिवन ने यदि बाइडन शासन की विदाई की बेला में उनकी तारीफ की है, उसे भी समझा जा सकता है। वैश्विक कूटनीति के जानकारों का मानना है कि अभी अमेरिका में सत्ता के हस्तांतरण और परिवर्तन का दौर चल रहा है, कुछ समय बाद ऐसा बांग्लादेश, यूक्रेन और कुछ दूसरी जगहों पर देखने को मिल सकता है। भारत की दरअसल इस पूरे घटनाक्रम पर बारीक निगाह है। हम अब वाच एंड वेट और सुप्त अवस्था वाली विदेश नीति से अब बाहर निकल आए हैं। मोदी सरकार हर मुद्दे पर आगे बढ़कर एक्ट करती हुई नजर आती है। अजित डोभाल की बीजिंग यात्रा, विक्रम मिस्री की ढाका यात्रा और जयशंकर की अब वाशिंगटन यात्रा को इसी संदर्भ में देखे जाने की जरूरत है। इन तीनों यात्राओं का समय बेहद अहम है। जयशंकर की यात्रा को बाइडन प्रशासन और ट्रंप प्रशासन के बीच कड़ी के तौर पर देखा और समझा जा सकता है। इसी तरह अजित डोभाल की यात्रा का ही नतीजा है कि गलवान की झड़प के बाद से जो मानसरोवर यात्रा और सीमा के आर-पार सड़क मार्ग से व्यापार थम गया था, उसकी फिर से शुरूआत होने जा रही है। विदेश सचिव की ढाका यात्रा के तुरंत बाद बांग्लादेश के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने कोलकाता स्थित पूर्वी कमांड का दौरा किया जहां मुक्ति दिवस के सिलसिले में हर वर्ष कार्यक्रम का आयोजन होता है।

अमेरिका की सत्ता में डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन, उन्हें नई दिल्ली के महत्व का अहसास है। 2014 से भारत की कमान नरेन्द्र मोदी के हाथों में है। इस बीच वर्ल्ड आर्डर में जबरदस्त बदलाव हुए हैं। हमारे आस-पड़ोस में कई देशों में सत्ता बदल गई। नए राष्ट्र प्रमुख आ गए। मालदीव, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार से लेकर कई पड़ोसी देशों में बड़ी राजनीतिक घटनाएं घटी हैं परंतु नई दिल्ली में स्थायी, टिकाऊ और विश्वसनीय लीडरशिप कायम है। अमेरिका तक में तीन राष्ट्रपति बदल चुके हैं। 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने, तब अमेरिका में बराक ओबामा राष्ट्रपति थे । 2016 में ट्रंप आ गए। 2020 में जो बाइडन सत्ता में आ गए तो अब 2024 में फिर से डोनाल्ड ट्रंप वापस आ रहे हैं। मोदी के नेतृत्व में भारत ने जटिल से जटिल स्थितियों परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना किया है और अधिकांश का समाधान भी खोजा है। वर्ल्ड आर्डर में अब मोदी की वरिष्ठता और अनुभव को कई अवसरों पर और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर महत्व भी मिला है और सराहना भी।

तीसरी बार सत्ता की बागडोर संभालने के तुंरत बाद जब उनकी पहली आधिकारिक यात्रा मास्को की हुई तब तमाम नुक्ताचीनी की गई थी। खासतौर से अमेरिका के विदेश विभाग की ओर से इस पर थोड़ी नाखुशी जाहिर की गई परंतु भारत पर अब इसका कोई प्रभाव होते हुए दिखता नहीं है, क्योंकि संतुलन कैसे साधा जाता है, यह मौजूदा नेतृत्व जानता है। मास्को के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचकर जेलेंस्की से भी मुलाकात की और कुछ समय बाद अमेरिका की यात्रा कर जो बाइडन से भेंट की। तीनों ही नेताओं से वह गर्मजोशी से गले मिलते हुए भी दिखाई दिए। दरअसल, यही बदला हुआ भारत है, जिसे कुछ ताकतें न पचा पा रही हैं और न गले से नीचे उतार पा रही हैं।

गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादों के साहस को श्रद्धांजलि - वीर बाल दिवस 26 दिसंबर 2024 पर विशेष

छोटे साहबजादों का स्मरण आते ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है व सिर श्रद्धा से झुक जाता है

साहबजादों बाबा जोरावर सिंह व फतेहसिंह के सम्मान में बाल दिवस के साथ बाल पुरस्कार 26 जनवरी के स्थान पर 26 दिसंबर को देना सराहनीय निर्णय- एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर आदि अनादि काल से भारत की अनेक गाथाएं इतिहास में दर्ज है, जिसका बखान उनके प्रकाशोत्सव वर्षगांठ या उस दुखद पल कुबार्नी दिवस के रूप में उसको याद किया जाता है। इसी कड़ी में 26 दिसंबर 2024 को सिखों के दसवें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार की शहादत को आज भी इतिहास की सबसे बड़ी शहादत माना जाता है। छोटे साहिबजादों का स्मरण आते ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और सिर श्रद्धा से झुक जाता है। देश में पहली बार पीएम के ऐलान के बाद ही 26 दिसंबर को गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के साहस को श्रद्धांजलि देने के लिए वीर बाल दिवस पूरे देश-विदेश में मनाया जाता है। गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब उस स्थान पर खड़ा है, जहां साहिबजादों ने आखिरी सांस ली। केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री ने मंगलवार 24 दिसंबर 2024 को एक बयान जारी कर- के बताया कि भारत के बच्चों की उपलब्धियों और साम?र्थ्य को सम्मानित करते हुए आगामी गुरुवार को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रव्यापी गतिविधियों के लिए इस साल 14 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 17 बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार समारोह में सात श्रेणियों में उल्लेखनीय योगदान के लिए सात लड़कों और दस लड़कियों को सम्मानित किया जाएगा। पीएम बाल पुरस्कार इस बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के बजाय 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के मौके पर दिए जाएंगे। राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में बाल पुरस्कार बांटेंगीं।पीएम इसके बाद भारत मंडपम में बच्चों से मिले।चूँकि छोटे साहबजादों का स्मरण आते ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाताहै व सिर श्रद्धा से झुक जाता है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादों के साहस को श्रद्धांजलि, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर 2024 पर विशेष। साथियों बात अगर हम वीर बाल दिवस के महत्व व परिभाषा संशोधन की करें तो, यह दिवस खालसा के चार साहिबजादों के बलिदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। अंतिम सिख गुरु गोबिंद सिंह के छोटे बच्चों ने अपने आस्था की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। यह उनकी कहानियों को याद करने का भी दिन और यह जानने का भी दिन है कि कैसे उनकी निर्मम हत्या की गई-खासकर जोरावर और फतेह सिंह की। सरसा नदी के तट पर एक लड़ाई के दौरान दोनों साहिबजादों को मुगल सेना ने बंदी बना लिया था।इस्लाम धर्म कबूल नहीं करने पर उन्हें क्रमशः 8 और 5 साल की उम्र में कथित तौर पर जिंदा दफन कर दिया गया था। बदली परिभाषा, अब, वीर वह है जो अंधेरों को रोशन करेंसरकार ने इस बार वीरता की परिभाषा को भी परिमार्जित किया है। इसमें कहा गया है, वीर वह है जो अंधेरों को रोशन करें। इसमें केवल साहस ही नहीं दया, क्रियाशीलता, नवप्रवर्तन के साथ कुछ कर गुजरे बच्चों जो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं को शामिल किया गया है, ताकि इससे देश की युवा पीढ़ी और बच्चे भी ऐसा करने के लिए प्रेरित हों। सरकार का मकसद इसके जरिये समग्रता के साथ बच्चों की वीरता और कारनामों को पेश करना है। वीर

सपूतों के अदम्य साहस से प्रेरणा लेना आवश्यक है। साथियों बात अगर हम 26 दिसंबर 2024 को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने व इसी दिन पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वितरण की करें तो,पीएम आह्वान पर 2022 से 26दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन सिखों के दसवें गुरु गोविंद सिंह के दो छोटे साहिबजादे 9 साल के बाबा जोरावर सिंह और उनके छोटे भाई 5 साल के बाबा फतेह सिंह की वीरता को समर्पित है। 26 दिसंबर को 1705 में इन महान सपूतों को धर्म नहीं बदलने पर प्रतिशोध स्वरूप वजीर खान ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। इस शहादत को नमन करने के लिए इस बार वीर बाल दिवस के मौके पर बहादुर बच्चों को सम्मानित किया जा जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों के साथ वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। यह वह नौनिहाल हैं, जिन्होंने साबित किया है कि दृढ़ संकल्प से हर मुकाम हासिल किया जा सकता है। इन बाल प्रतिभाओं से प्रेरणा लेकर विकसित भारत बनाएंगे। भारत सरकार असाधारण उपलब्धियों के लिए सात श्रेणियों कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण में बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (पीएमआरबीपी) प्रदान करती है। इस बार 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 17 बच्चों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनमें 7 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु 26 दिसंबर, 2024 को इन बच्चों को पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रत्येक विजेता को पदक, प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र पुस्तिका दिए जाएंगे। वीर बाल दिवस पर राष्ट्रीय कार्यक्रम 26 दिसंबर, 2024 को ही नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा । यह दिन युवा दिमागों को पोषित करने, उनकी रचनात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की भविष्यदृष्टि में योगदान के लिए उन्हें प्रेरित करने पर केंद्रित होगा। इस कार्यक्रम में पीएम शामिल होंगे। आयोजन में पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं और गणमान्य व्यक्तियों सहित लगभग 3,500 बच्चे इस कार्यक्रम में भाग लेंगे।कार्यक्रम में बच्चों द्वारा भारतीय विरासत को दर्शाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। बच्चे विविध संस्कृतियों के प्रतिनिधित्व वाले मार्च पास्ट में भी शामिल होंगे। इसके अलावा माई गॉव/माई भारत पोर्टल पर ऑनलाइन गतिविधियां सहित देश भर के स्कूलों, बाल देखभाल संस्थानों, आंगनवाड़ी केंद्रों में कहानी सुनाने, रचनात्मक लेखन, पोस्टर बनाने, निबंध लेखन, कविता और प्रश्नोत्तरी जैसी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। साथियों बात अगर हम वीर बाल दिवस के इतिहास की करें तो, बताते हैं कि मुगलों ने अचानक आनंदपुर साहिब के किले पर हमला कर दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी मुगलों से लड़ना चाहते थे, लेकिन अन्य सिखों ने उन्हें वहां से चलने के लिए कहा। इसके बाद गुरु गोबिंद सिंह के परिवार सहित अन्य सिखों ने आनंदपुर साहिब के किले को छोड़ दिया और वहां से निकल पड़े। जब सभी लोग सरसा नदी को पार कर रहे थे तो पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि पूरा परिवार बिछड़ गया। बिछड़ने के बाद गुरु गोबिंद सिंह व दो बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह व बाबा जुझार सिंह चमकौर पहुंच गए। वहीं, माता गुजरी, दोनों छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह व बाबा फतेह सिंह और गुरु साहिब के सेवक रहे गंगू गुरु साहिब व अन्य सिखों से अलग हो गए। इसके बाद गंगू इन सभी को अपने घर ले गया लेकिन उसने सरहिंद के नवाज वजीर खान को जानकारी दे दी जिसके बाद वजीर खान माता गुजरी और दोनों छोटे साहिबजादों को कैद कर लिया। वजीर खान ने दोनों छोटे साहिबजादों को अपनी कचहरी में बुलाया और डरा-धमकाकर उन्हें धर्म परिवर्तन करने को कहा लेकिन दोनों साहिबजादों ने जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के जयकारे लगाते हुए धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया। वजीर खान ने फिर धमकी देते हुए कहा कि कल तक या तो धर्म परिवर्तन करो या मरने के लिए तैयार रहो। 27 दिसंबर को अगले दिन ठंडे बुर्ज में कैद माता गुजरी ने दोनों साहिबजादों को बेहद प्यार से तैयार करके दोबारा से वजीर खान की कचहरी में भेजा। यहां फिर वजीर खान ने उन्हें धर्म परिवर्तन करने को कहा लेकिन छोटे साहिबजादों ने मना कर दिया और फिर से जयकारे लगाने लगे। यह सुन वजीर खान तिलमिला उठा और दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवाने का हुक्म दे दिया और साहिबजादों को शहीद कर दिया। यह खबर जैसे ही माता दादी माता गुजरी के पास पहुंची, उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादों के साहस को श्रद्धांजलि-वीर बाल दिवस 26 दिसंबर 2024 पर विशेष,छोटे साहबजादों का स्मरण आते ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है व सिर श्रद्धा से झुक जाता है।साहबजादों बाबा जोरावर सिंह व फतेहसिंह के सम्मान में बाल दिवस के साथ बाल पुरस्कार 26 जनवरी के स्थान पर 26 दिसंबर को देना सराहनीय निर्णय है।

-संकलनकर्ता लेखक - कर विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए(एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

तीखी नजर

सर्दी में स्नान और पाप मुक्ति की चिंता

जवाहर चौधरी

धककों से मैं भी परेशान हूं। मेरी यह परेशानी नयी नहीं है। प्रायः सर्दी का मौसम शुरू होते ही यह खतरा मंडराने लगता है। घर वाले धक्का मार मार के मुझे बाथरूम में ठूंस देते हैं। बाल्टी में भरा ठंडा पानी ऐसा चेंटता है ना कि रूह संसद की तरह हिल जाती है। मन बहिर्गमन के लिए हूम हूम करता है पर दरवाजे के बाहर खड़ी सभापति 'प्लीज बैठ जाओ और नहा लो' की रट लगाये रहती है। मैं तो कहता हूं नए साल में एक नया कानून यह भी बनना चाहिए कि सर्दी के मौसम में किसी को जबरन नहलाना शारीरिक शोषण और धक्का मारना शारीरिक प्रताड़ना माना जाएगा। अबकी चार सौ पार हो गए तो देख लेना सबसे स्नान पीड़ित यही मांग उठाएंगे। ठंड में नहाने का कानून ही बदल देंगे।

हमारे देश में नहाना एक परम्परा है और जरूरत भी। नहाने के लिए श्रद्धालु कुम्भ तक में पहुँच जाते हैं। मानते हैं कि पाप धूल गए, यह परंपरा है। सुलझी हुई आत्मा वाले कुछ लोग अपने बूढ़े मां-बाप को कुम्भ में खपाने आते हैं और हाथोंहाथ पाप धो कर लौट जाते हैं, यह जरूरत है। किसी ने कहा है कि राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। बात अपने आप में साफ है कि जितने भी नहा रहे हैं उसका कारण मात्र शारीरिक सफाई नहीं है। संसार भर ने देखा कि करोड़ों खर्च हो गए, महीनों कोशिश की लेकिन गंगा साफ नहीं हुई। आदमी का पाप गंगा में गहराई तक पैठा हुआ है, ऊपर होता तो बुलडोजर से धराशायी करवाया जा सकता था। सुना है गंगा ने सक्षम अधिकारी से कहा कि मुझे साफ करने की अपेक्षा लोगों को पाप करने से रोको, मैं अपने आप साफ हो जाऊंगी। सक्षम ने अक्षम होते हुए सॉरी कहा और फिर पलट कर नहीं देखा। ज्यादातर लोग भूल जाते हैं, जिम्मेदार याद नहीं करना चाहते हैं, गंगा नाक दबाये बहती रहती है। किसीने सफाई अभियान को धक्का नहीं मारा लेकिन आइसीयू से बाहर निकल ही नहीं रहा है। पता नहीं जिंदा भी है या मर गया। चलो अपन तो कुम्भ में देखते हैं, पता नहीं कोई सफाई अभियान को मेले में छोड़ गया हो।

इधर आम आदमी, जिसके पास खाने पहनने को नहीं है, जो पांच किलो मुफ्त राशन के भरोसे घर में पड़ा है, जिसके पास सही गलत कोई रोजगार नहीं है, सड़क पर निकलता है तो गुंडों से डरता है, वर्दी वाला दिख जाए तो कानून के डर से कांपता है, प्रभु दर्शन को जाए तो अपवित्रता के डर दूर खड़ा रहता है! वो पाप करने कहां जाएगा कोई गुंजाइश है? पाप करने के लिए भी सामर्थ्य होना चाहिए। छोटा मोटा लल्लू पंजू पाप के समृद्ध संसार में फिट नहीं बैठता है। वो कहते हैं ना हाथ पैर में दम नहीं और हम किसी से काम नहीं। ऐसा आदमी नहा भी ले तो समझो पाप ही करेगा। उसके लिए तो पीने को पानी मिल जाए तो बहुत है। गरीब का दिल बड़ा होता है, पीने भर को मुफ्त पानी मिल जाए तो सरकार बनवा देता है दन्न से।

सार संक्षेप

सर्जरी के कारण बेन स्टोक्स तीन महीने तक नहीं खेल सकेंगे क्रिकेट

लंदन : इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन स्टोक्स को अगले महीने बाएं पैर में होने वाली हैमस्ट्रिंग की सर्जरी के कारण कम से कम तीन महीने तक क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने जारी एक बयान में कहा है कि बेन स्टोक्स जनवरी में हैमस्ट्रिंग की सर्जरी करवाएंगे। इसके बाद वह रिहैब की प्रक्रिया के कारण कम से कम तीन महीने के लिए क्रिकेट से दूर रहेंगे। 33 वर्षीय स्टोक्स को इस महीने की शुरुआत में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन गेंदबाजी करते समय यह चोट लगी थी। स्टोक्स को चोट के कारण जनवरी और फरवरी में भारत के सफेद गेंद दौरे और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंग्लैंड की टीम में शामिल नहीं किया गया था।

जीएमआर स्पोर्ट्स ने रग्बी इंडिया के साथ साझेदारी की

नई दिल्ली : जीएमआर स्पोर्ट्स ने रग्बी प्रीमियर लीग (आरपीएल) को शुरू करने के लिए रग्बी के राष्ट्रीय शासी निकाय-रग्बी इंडिया के साथ दस वर्षीय रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। जीएमआर स्पोर्ट्स ने कहा कि 2025 में शुरू होने वाली आरपीएल दुनिया की पहली फ्रैंचाइजी आधारित रग्बी लीग में से एक होगी। इसमें छह शहरों की टीमें शामिल होंगी और दुनिया भर के शीर्ष रग्बी देशों की बेहतरीन प्रतिभाएं इसमें अपना दमखम दिखाएंगी। इस लीग का लक्ष्य युवा भारतीय प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों और शीर्ष स्तरीय कोचिंग से परिचित कराकर खेल के लिए एक स्थायी इकोसिस्टम बनाना है। इस परिवर्तनकारी सहयोग पर जीएमआर स्पोर्ट्स के अध्यक्ष किरण कुमार ग्रांधी ने कहा कि जीएमआर स्पोर्ट्स में, हम ऐसे प्लेटफॉर्म बनाकर भारत में खेलों के भविष्य को आगे बढ़ाने में विश्वास करते हैं जो एथलीटों और खेल प्रेमियों को समान रूप से प्रेरित करते हैं। रग्बी प्रीमियर लीग केवल एक लीग नहीं है यह ग्रासरूट स्तर पर विकास को बढ़ावा देते हुए विश्व स्तरीय रग्बी को भारत में लाने का एक आंदोलन है। रग्बी इंडिया के साथ साझेदारी हमारे द्वारा खेले जाने वाले हर खेल में अवसर पैदा करने और उत्कृष्टता के लिए मानक स्थापित करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हम भारतीय खेलों में इस रोमांचक नए अध्याय की अगुआई करने के लिए उत्साहित हैं।

पीकेएल मेलबर्न रेड में खेलेंगे प्रो कबड्डी के दिग्गज खिलाड़ी, दिखाएंगे दमखम

पुणे : ऑस्ट्रेलिया के जॉन कैन एरिना में शनिवार से शुरु होने वाले पीकेएल मेलबर्न रेड में प्रो कबड्डी के अजय ठाकुर, परदीप नरवाल, अनूप कुमार, राकेश कुमार, मनिंदर सिंह, सचिन तंवर और अन्य दिग्गज खिलाड़ी खेलेंगे। इस ऐतिहासिक स्पर्धा में चार दुर्जेय टीमें एक-दूसरे का सामना करेंगी। पीकेएल ऑल स्टार मावेरिक्स, पीकेएल ऑल स्टार मास्टर्स और प्रो कबड्डी ऑल स्टार्स ऐसी तीन टीमें होंगी, जिनमें पीकेएल के सर्वश्रेष्ठ भारतीय कबड्डी खिलाड़ी शामिल होंगे। साथ ही स्टार खिलाड़ियों से सजी ऑस्ट्रेलियाई टीम आसीज रेडर्स भी इस अनोखी प्रतियोगिता में वर्चस्व के लिए संघर्ष करेगी। इस अनूठे आयोजन से पहले पीकेएल के लीग कमिश्नर अनुपम गोस्वामी ने कहा कि हम मेलबर्न में पीकेएल परफॉर्मेंस के लिए दुनिया के सबसे प्रमुख स्पोर्ट्स डेस्टीनेशन शहरों में से एक-विजिट विक्टोरिया-द्वारा आमंत्रित किए जाने से रोमांचित हैं। पीकेएल मेलबर्न रेड कबड्डी की बढ़ते ग्लोबल अपील को दर्शाता है, जो दिग्गजों के साथ-साथ मौजूदा सितारों को भी एक साथ लाता है। भारत में जारी पीकेएल सीजन-11 के अंतिम चरण में आने से, यह हमारी लीग की क्षमताओं को प्रदर्शित करने के साथ-साथ वास्तव में विश्व स्तरीय खेल के रूप में कबड्डी की ऊर्जा को प्रदर्शित करने का एक शानदार अवसर है।

वायुसेना और हिंदुस्तान की संघर्षपूर्ण जीत

नई दिल्ली : डीएसए प्रीमियर लीग में यहां अम्बेडकर स्टेडियम मैदान पर भारतीय वायुसेना की युवा टीम ने लगातार पराजयों के बाद फ्रेंड्स यूनाइटेड को एक गोल से हरा कर जीत का स्वाद चखा। वहीं दिन के पहले मुकाबले में हिंदुस्तान फुटबॉल क्लब ने वाटिका फुटबॉल क्लब को 2-1 से हराकर दूसरे लेग की पहली जीत दर्ज की। वायुसेना की ओर से सौरभ साधु खां ने विजयी गोल दागा। पहले मुकाबले में हिंदुस्तान के लिए त्रिथंकट सरकार और सेमिन्हाओ वाइफई ने गोल किए, जबकि वाटिका का गोल अभिषेक बॉक्सला ने बनाया। पिछले कुछ मुकाबलों में वायुसेना की टीम ज्यादातर नियमित खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी के चलते अपना श्रेष्ठ नहीं दे पाई लेकिन उसे पूरे दमखम से उतरने का लाभ मिला और मुकाबला जीत कर उसने 12 मैचों में 10 अंक जुटा लिए। फ्रेंड्स यूनाइटेड के इतने ही मुकाबलों में 14 अंक हैं। हिंदुस्तान एफसी के 13 और वाटिका के 16 अंक है। हिंदुस्तान और वाटिका के मैच में आक्रमक खेल देखने को मिला लेकिन कमजोर निशानेबाजी के चलते वाटिका को हार मिली। वायुसेना ने अधिकांश समय खेल पर पकड़ बनाई लेकिन अनुभव हीनता और कमजोर निशानेबाजी आड़े आई। सौरभ का जीत दिलाने वाला गोल दर्शनीय रहा। उसने लंबी दौड़ के साथ रक्षापंक्ति को मात दी और गोल किया।

महिला वनडे : बंगाल ने लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन चेज किया

राजकोट : सीनियर महिला वनडे ट्रॉफी में बंगाल ने हरियाणा के खिलाफ लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन चेज करने का रिकॉर्ड बनाया है। क्वार्टर फाइनल मैच में बंगाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। हरियाणा से ओपनर शेफाली वर्मा के शानदार 115 गेंद पर 197 रन की मदद से टीम ने 50 ओवर में 389 रन बनाए। जवाब में बंगाल ने 49.1 ओवर में 5 विकेट खोकर 390 रन का टारगेट हासिल किया। टीम से तनुश्री सरकार ने 113 रन बनाए और 3 विकेट भी लिए। यह मुकाबला राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला गया। महिला लिस्ट ए क्रिकेट में इससे पहले सबसे बड़ा रन चेज का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड की नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट टीम के नाम दर्ज था। साल 2019 में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ने केंटरबरी के खिलाफ 309 रन के लक्ष्य का हासिल कर रिकॉर्ड बनाया था। महिला इंटरेशनल क्रिकेट में श्रीलंका के नाम सबसे ज्यादा रन चेज करने का रिकॉर्ड है। टीम ने इसी साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 305 रन के लक्ष्य को हासिल किया था। पिछली 2 सीरीज से टीम से बाहर हरियाणा के लिए शेफाली वर्मा ने 115 गेंदों पर 197 रनों की पारी खेली।

23 फरवरी को होगा 'महामुकाबला'

आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल रिलीज किया, बांग्लादेश से होगा भारत का ओपनिंग मैच

● दुबई,

आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल मंगलवार को रिलीज कर दिया। हाइब्रिड मॉडल में होने वाला टूर्नामेंट 19 फरवरी से शुरू होकर 9 मार्च तक चलेगा। 19 दिन में 15 मैच खेले जाएंगे। दूसरे सेमीफाइनल और फाइनल के लिए रिजर्व डे भी रखा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप मैच 23 फरवरी को दुबई में होगा।

भारत अपने सभी मैच दुबई में ही खेलेगा, टीम के ग्रुप में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड भी हैं। दुबई में ही एक सेमीफाइनल भी खेला जाएगा। अगर भारत फाइनल में पहुंचा तो यह मैच भी दुबई में होगा। जबकि टूर्नामेंट के बाकी 10 मैच पाकिस्तान में होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 8 साल बाद होने जा रही है, 2017 में आखिरी बार पाकिस्तान ने भारत को फाइनल हराकर खिताब जीता था। बांग्लादेश के खिलाफ अभियान शुरू करेगा भारत भारत ग्रुप-ए में है। टीम के ग्रुप में पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड हैं। वहीं दूसरे ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान हैं। 4 और 5 मार्च को 2 सेमीफाइनल होंगे, वहीं 9 मार्च को फाइनल खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान की टीमें एक-दूसरे के देश में जाकर क्रिकेट नहीं खेलेंगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के सभी मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। पाकिस्तानी टीम भी 2027 तक किसी भी टूर्नामेंट के लिए भारत नहीं आएगी। उसके मैच भी न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। आईसीसी की इस फैसले की जानकारी गुरुवार 19 दिसंबर को सामने आई। मीटिंग में यह फैसला पहले ले लिया गया था। भारत में 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप, 2026 में टी-20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में होना है। इससे पहले जब आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को हाइब्रिड मॉडल में कराने की बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को बताई थी, तब पीसीबी ने आईसीसी के सामने भारत में टीम न भेजने की मांग रखी थी, जिसे अब आईसीसी ने मान लिया है। सभी 15 मेंबर्स हाइब्रिड मॉडल के लिए माने आईसीसी के नए चेयरमैन जय शाह की मौजूदगी में 5 दिसंबर को सभी बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग हुई थी। शाह इसी महीने दुबई स्थित हेडक्वार्टर भी पहुंचे थे। मीटिंग में सभी 15 बोर्ड मेंबर्स हाइब्रिड मॉडल के लिए मान गए। पाकिस्तान ने भी मीटिंग में फैसले का विरोध नहीं किया। शुरूआत में भारत ने इस टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान पहले तो इस बात पर अड़ा रहा कि भारत को पाकिस्तान आना ही होगा, लेकिन भारत के सख्त रुख के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आखिरकार हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार हो गया है।

● 23 फरवरी को दुबई में पाकिस्तान से भिड़ेंगे भारत

● 19 फरवरी से शुरू होकर 9 मार्च तक चलेगा टूर्नामेंट, 19 दिन में खेले जाएंगे 15 मैच

● 4 और 5 मार्च को 2 सेमीफाइनल होंगे, वहीं 9 मार्च को खेला जाएगा टूर्नामेंट का फाइनल

पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली के स्वास्थ्य में सुधार

मुंबई, वार्ता : विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हो रहा है। उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। कांबली को बेचैनी महसूस होने के बाद सोमवार को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि कांबली निम्न रक्तचाप और मूत्र मार्ग के संक्रमण (यूटीआई) सहित विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं, लेकिन उन पर इलाज का असर हो रहा है। उनकी हालत 'स्थिर' हो रही है। डॉक्टरों ने बताया कि सोडियम और पोटैशियम में असंतुलन के कारण उनमें जकड़न और गतिशीलता संबंधी समस्याएं देखी गईं। उन्होंने कहा कि उनके मस्तिष्क में पिछले स्ट्रोक के कारण बने थक्के भी पाए गए, जिससे न्यूरोडीजेनेरेटिव परिवर्तन हुए। इसके कारण उनकी याददाश्त और अंगों का समन्वय प्रभावित हुआ है।

महिला अंडर-19 टी-20 विश्वकप में निकी को कमान

मुंबई, वार्ता : अगले महीने मलेशिया में होने वाले महिला अंडर 19 टी-20 विश्वकप में भारतीय टीम की अगुवाई निकी प्रसाद करेंगी। चयनकर्ताओं ने हाल ही में अंडर-19 एशिया कप जीतने वाली 15 सदस्यीय दल में एकमात्र बदलाव वैष्णवी एस के रूप में किया गया है। वैष्णवी मध्यम गति की तेज गेंदबाज नंदना एस की जगह लेंगी। नंदना को स्टैंडबाय खिलाड़ियों के रूप में रखा गया हैं। जी तृषा, शकिल और सोनम यादव का यह दूसरा अंडर 19 विश्वकप होगा। यह टूर्नामेंट भारत 18 जनवरी से दो फरवरी तक खेला जाएगा। कुल 16 टीमों वाले इस टूर्नामेंट में टीमों को चार के समूह में चार अलग-अलग ग्रुप में विभाजित किया गया है। भारत के साथ ग्रुप ए में मलेशिया, श्रीलंका और वेस्टइंडीज की टीम शामिल हैं। लीग स्तर के बाद हर ग्रुप से तीन टीमें सुपर सिक्स में जाएंगी जहां उन्हें छह-छह के समूह में वर्गीकृत किया जाएगा। लीग स्टेज में सुपर सिक्स की अन्य टीमों के खिलाफ मिले अंक और नेट रन रेट भी सुपर सिक्स स्टेज में शामिल होंगे। सेमीफाइनल मुकाबले 31 जनवरी और फाइनल दो फरवरी को खेला जाएगा।

अब मेरा घुटना ठीक, प्रैक्टिस में चोट लगी थी : रोहित शर्मा

● मेलबर्न

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट से पहले अपनी फिटनेस पर अपडेट दिया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि उनका घुटना ठीक है। हालांकि, इंडियन कैप्टन ने बैटिंग ऑर्डर में अपनी पोजिशन पर संदेह बरकरार रखा।

37 साल के रोहित शर्मा ने कहा कि कौन कहां बल्लेबाजी करेगा इसको लेकर चिंता ना करें। हमें इस पर विचार करने की जरूरत है और यह ऐसी चीज नहीं है जिस पर मैं यहां चर्चा करूं। हम वही करेंगे जो टीम के लिए बेस्ट होगा। रोहित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर रविवार को प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हो गए थे। उनके बाएं घुटने में चोट लग गई थी। उनकी चोट को लेकर कई चिंताएं थीं। यहां टीम इंडिया 26 दिसंबर से बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का चौथा मुकाबला खेलेगी। रविवार 22 दिसंबर को रोहित के घुटने पर चोट लगी थी। वे बर्फ से सिंकाई करते नजर आए थे। छठे नंबर पर उतरे रहे हैं रोहित, 19 रन ही बना सके। अपने दूसरे बच्चे के जन्म के कारण पहले टेस्ट मैच में नहीं खेल पाए थे। उन्हें दूसरे टेस्ट में सलामी बल्लेबाज के रूप में वापसी करनी थी, लेकिन केएल राहुल ने पर्थ में 77 रन की प्रभावशाली पारी खेल कर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई।

कहा- बैटिंग ऑर्डर की चिंता छोड़ो, कोहली रन बनाने का तरीका ढूंढ लेंगे

इसके बाद भारतीय कप्तान को छठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरना पड़ा। हालांकि, रोहित के लिए यह बदलाव अच्छा नहीं रहा। वे अब तक तीन पारियों में केवल 19 रन ही बना सके हैं। दूसरी ओर राहुल ने तीसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में 84 रन बनाकर शीर्ष क्रम में अपना दावा मजबूत किया। रोहित बोले कि कोहली रन बनाने का तरीका ढूंढ लेंगे। विराट कोहली की खराब फॉर्म और ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंदों को खेलने में परेशानी पर रोहित ने कहा कि कोहली इससे पार पाने का तरीका ढूंढ लेगा।

बोलैंड की वापसी ,सैम करेंगे पदार्पण

● मेलबर्न

स्कॉट बोलैंड एक बार फिर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) पर होने वाले टेस्ट मैच में वापसी और सैम कॉन्सटास ऑस्ट्रेलिया के लिए पदार्पण करेंगे।

कॉन्सटास 19 साल और 85 दिन में टेस्ट पदार्पण करने वाले ऑस्ट्रेलिया के चौथे सबसे युवा खिलाड़ी होंगे। इयान क्रैग, मौजूदा कप्तान पैट कमिंस और टॉम गैरेट ने ही उनसे कम उम्र में पदार्पण किया है। मक्डॉनल्ड ने मंगलवार को प्रशिक्षण के बाद संवाददाता सम्मेलन में इसकी पुष्टि की। ऑस्ट्रेलिया के चयनकर्ता टोनी डोडेमाडे ने उसी सुबह कॉन्सटास को अच्छी खबर दी, लेकिन उन्होंने कहा कि शेष एकादश की पुष्टि क्रिसमस के दिन होगी जब कमिंस मैच से पहले संवददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने गर्मियों की शुरुआत में ही कहा था कि हम पीछे नहीं हटेंगे और उम्र कोई बाधा नहीं होगी। और उसके पास शॉट्स की एक सीरीज है, विरोधियों पर दबाव बनाने की क्षमता है और वह मिले अवसर का फायदा उठाता है। हम वास्तव में उसके लिए उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि बायें हाथ का बल्लेबाज ट्रेविस हेड मैच खेलने के लिए फिट होगा। हेड ने मंगलवार को नेट्स में थोड़ी दौड़ लगाई और क्षेत्ररक्षण किया। लेकिन मेलबर्न में खेलने के लिए उन्हें फिटनेस टेस्ट देना होगा। ब्रिसबेन में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते समय हेड को बहुत मामूली जांघ में खिंचाव का सामना करना पड़ा और बारिश के कारण मैच समाप्त होने से पहले उन्होंने भारत की दूसरी पारी के दौरान क्षेत्ररक्षण नहीं किया। मक्डॉनल्ड ने कहा कि फिलहाल कोई चिंता की बात नहीं है। उन्हें आधिकारिक तौर पर हटाया नहीं गया है। मैंने वहां उसके प्रशिक्षण सत्र का बैक-एंड नहीं देखा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वह खेलेगा।

हरलीन देओल ने जड़ा शतक, मारे 16 चौके

भारत ने दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज को 115 रन से हराकर सीरीज में अजेय बढ़त बनाई

● वडोदरा

हरलीन देओल (115) की शतकीय, प्रतिका रावल (76), स्मृति मंधाना (53) और जेमिमाह रॉड्रिग्स (52) की अर्धशतकीय पारियों के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारतीय महिला टीम ने मंगलवार को दूसरे एकदिवसीय मुकाबले में वेस्टइंडीज को 115 रनों से हराकर तीन एकदिवसीय मैचों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली हैं।

359 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज शुरुआत अच्छी नहीं और उसने अपना पहला विकेट 20 के स्कोर पर गवां दिया। दीप्ति शर्मा किआना जोसेफ (15) को छठें ओवर में प्रतिका रावल के हाथों कैच आउट कराकर भारत पहली सफलता दिलाई। तितास साधु ने 10वें ओवर में भारत को दूसरी सफलता दिला दी है। साधु ने पहला मैच खेल रहीं क्रॉफ्टन को लगातार दूसरी छोटी गेंद डाली और वह शॉट जल्दी खेल बैठीं और तितास साधु ने एक आसान सा कैच पकड़ लिया। क्रॉफ्टन (13) रन बनाकर आउट हुई। इसके बाद प्रिया मिश्रा ने बैकऑफ लेंथ गेंद पर रशादा विलियम्स (शून्य) को आउट किया। 17वें ओवर में रेणुका सिह ठाकुर ने डिएंड्रा डॉटिन (10) को पवेलियन चलता कर दिया है। हालांकि इस दौरान कप्तान हेली मैथ्यूज एक छोर थामे रही और उन्होंने अर्धशतक पूरा किया। कैंपबेल और मैथ्यूज़ के बीच पांचवें विकेट के लिए 112 रनों की साझेदारी हुई। साधु ने कैंपबेल तिताश (38) को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। इसी दौरान मुश्किल परिस्थिति में मैथ्यूज ने भारत में अपना पहला शतक पूरा किया। यह उनके करियर का सातवां शतक है। महिलाओं के वनडे में मैथ्यूज तीसरी ऐसी खिलाड़ी बन गई जिसने 100 विकेट के साथ-साथ सात शतक भी लगाया है। 39वें ओवर में प्रतिका रावल ने मैथ्यूज (106) को आउटकर वेस्टइंडीज को सातवां झटका दिया। इसके बाद जायडा जेम्स (25), ऐफी फ्लेचर (22) और करिश्मा रामहैरक (तीन) रन बनाकर आउट हुई।

पूर्व क्रिकेटर नमन ओझा के पिता को हुई सात साल की जेल

बैतूल : पूर्व क्रिकेटर नमन ओझा के पिता को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में गबन के मामले में कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। बैतूल के बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जौलखेड़ा शाखा में हुए फ्रॉड के चर्चित मामले में मुलताई अपर सत्र न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाया। न्यायालय ने गबन के मास्टरमाइंड अभिषेक रत्नम को 10 साल की सजा और 80 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया। वहीं सह-आरोपियों, जिनमें पूर्व क्रिकेटर नमन ओझा के पिता विनय ओझा, बैंककर्मी धनराज और लखन शामिल हैं, को 7-7 साल की सजा और 7-7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह मामला साल 2013 का है, जब जौलखेड़ा ग्राम पंचायत स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में गबन का मामला सामने आया। मास्टरमाइंड अभिषेक रत्नम ने बैंक अधिकारियों के पासवर्ड का उपयोग कर गबन को अंजाम दिया। जांच के दौरान पता चला कि इस गबन में बैंक के अन्य कर्मचारी भी शामिल थे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सैयद ज़की हैदर के लिए इरानीयन आर्ट प्रिंटर्स 1534 कासिमजान स्ट्रीट दरियागंज नई दिल्ली 11006 से मुद्रित कराकर, 2684 गली काले खां कूचा चलान दरियागंज नई दिल्ली 02 से प्रकाशित किया।
संपादक : सैयद ज़की हैदर- हैड ऑफिस :- एफ19/4 सेकेंड फ्लोर नफीश रोड जामिया नगर दिल्ली- 110025., सम्पर्क सूत्र :- 9911371802, 9810383593
जितेन्द्र कुमार बिस्वाल ब्यूरो चीफ उड़ीसा/ गोविंद कनोडिया/ पटना/ सैय्यद यूसुफ अली नक़वी-पॉलिटिकल एडिटर। ई-मेल:- dailyloktantra@gmail.com

किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निपटारे के लिए केवल दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगी।
नोट- किसी भी समाचार/आलेख पर दावा प्रति दावा/आपत्ति समाचार प्रकाशन के 15 दिनों के अन्तराल तक ही मान्य होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख से संपादक/प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय अनवार मंजिल नया टोला गंज नंबर 01 बेतिया/ बिहार/ पिन नंबर 84 5438/>> संवाददाता, सना खान/(डॉ. अमानुल हक) स्थानीय संपादक/बिहार)